

अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, छत्रपती संभाजीनगर व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि.०१/०३/२०२५ ते दि.३१/०८/२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन
जलसंपदा विभाग

शासन निर्णय क्रमांक:- मुवाढ-२०२५/(प्र.क्र.६५/२५)/लाक्षेवि (आस्था)

मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२.

दिनांक : ०७/०८/२०२५

- संदर्भ:- १. जलसंपदा विभागाचे शासन निर्णय क्र.आढावा-१००२/(३३५-२००२) आ(प्रशि), दि.०६.०२.२००३.
२. शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२४/(प्र.क्र.१५३/२४)/लाक्षेवि (आस्था), दि.०९/१०/२०२४.
३. वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि.०३/०३/२०२५.
४. अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, छत्रपती संभाजीनगर यांचे पत्र क्र. जा.क्र.लाक्षेविप्राष्ठसं/आस्था-१/६४७, दि.२७/०२/२०२५.

प्रस्तावना :-

अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, छत्रपती संभाजीनगर या प्राधिकरणातील व त्यांच्या अंतर्गत कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील २३५४ पदांना व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील ४८ पदांना संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१/०९/२०२४ ते दि.२८/०२/२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, छत्रपती संभाजीनगर यांनी त्यांच्या संदर्भ क्र.४ येथील नमूद पत्रान्वये प्राधिकरण व त्यांच्या अंतर्गत असलेल्या विभाग व उपविभाग व शाखा कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील २३५४ (नियत अस्थायी पदे- २३५४, स्थायी-२२, एकूण पदे-२३७६) पदांना व

रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ४२ पदांना दि.०१/०३/२०२५ ते दि.३१/०८/२०२५ पर्यंत मुदतवाढ मिळणेबाबत विनंती केलेली आहे.

वित्त विभागाने संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१/०३/२०२५ ते दि.३१/०८/२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

संदर्भ क्र.४ येथील प्रस्तावास अनुसरून अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, छत्रपती संभाजीनगर यांचे प्राधिकरणातील व त्यांच्या अंतर्गत विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील २३५४ (नियत अस्थायी पदे-२३५४, स्थायी पदे-२२ = एकूण पदे २३७६) पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ४२ पदांना दि.०१/०३/२०२५ ते दि.३१/०८/२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे.

शासन निर्णय :-

अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, छत्रपती संभाजीनगर यांनी संदर्भ क्र.४ अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावातील नमूद केलेली माहिती विचारात घेऊन खालील तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, छत्रपती संभाजीनगर यांचे प्राधिकरणातील व त्यांचे अंतर्गत विभागीय कार्यालयातील आकृतीबंधानुसार मंजूर नियत अस्थायी आस्थापनेवरील व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना संदर्भ क्र.३ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, दि.०१/०३/२०२५ ते दि.३१/०८/२०२५ पर्यंत खालील अटीच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

अ.क्र.	कार्यालयाचे नाव	दि.०१/०३/२०२५ ते दि.३१/०८/२०२५ पर्यंत मुदतवाढ		मुख्य लेखाशीर्ष व उपलेखाशीर्ष
		सुधारीत आकृतीबंधानुसार मंजुर पदे नियत अस्थायी आस्थापना	रुपांतरीत अस्थायी आस्थापना	
१.	अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, छत्रपती संभाजीनगर	३१	-	अ - मागणी क्रमांक आय-३ २७०१- मध्यम पाटबंधारे, (८०) सर्वसाधारण, (००१) संचालन व प्रशासन, (०४) परिरक्षण आस्थापना (०४)(१२) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, छत्रपती संभाजीनगर (अनिवार्य) (२७०१ ९९८७)
२.	कार्यकारी अभियंता छत्रपती संभाजीनगर पाटबंधारे विभाग, छत्रपती संभाजीनगर.	३३८ (एकूण पदे ३४४ त्यापैकी स्थायी पदे- ६)	१०	ब- मागणी क्रमांक आय-३. २७०५ लाभक्षेत्र विकास, (८०) सर्वसाधारण ४२६, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, छत्रपती संभाजीनगर (००) (००)(०७) प्रशासकांची आस्थापना (अनिवार्य) (२७०५ ३५८७)
३.	कार्यकारी अभियंता, जायकवाडी पाटबंधारे विभाग, नाथनगर (३), पैठण	५९४	१५	क-मागणी क्रमांक आय-३. २७०१ -मध्यम पाटबंधारे, ८०- सर्वसाधारण,
४.	कार्यकारी अभियंता, जायकवाडी पाटबंधारे विभाग क्र-२ परभणी	८४०	०८	
५.	कार्यकारी अभियंता, नांदुर मधमेश्वर पाटबंधारे विभाग, वैजापूर.	२२२	०४	
६.	कार्यकारी अभियंता, जालना पाटबंधारे विभाग, जालना.	३१४ (एकूण पदे ३३० त्यापैकी स्थायी पदे- १६)	०५	

अ.क्र.	कार्यालयाचे नाव	दि.०१/०३/२०२५ ते दि.३१/०८/२०२५ पर्यंत मुदतवाढ		मुख्य लेखाशीर्ष व उपलेखाशीर्ष
		सुधारीत आकृतीबंधानुसार मंजूर पदे नियत अस्थायी आस्थापना	रुपांतरीत अस्थायी आस्थापना	
७.	कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातील एकात्मिक पथक, छत्रपती संभाजीनगर .	१५	-	००१-संचालन व प्रशासन (०६)- लाभक्षेत्र विकास आस्थापना, (०६) (०६) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, छत्रपती संभाजीनगर (अनिवार्य) (२७०१ बी २१५) ड- मागणी क्रमांक आय-५ ४७०१ मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च ८०- सर्वसाधारण (००१) संचालन व प्रशासन
एकूण		२३५४ (एकूण पदे २३७६ त्यापैकी नियत अस्थायी पदे-२३५४, स्थायी पदे-२२)	४२	

१. अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, छत्रपती संभाजीनगर, कार्यालयांतर्गत आकृतीबंधानुसार २३५४ पदे नियत अस्थायी आस्थापनेवरील आहेत. आता या संस्थेतील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील २३५४ मंजूर पदांना ती सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्त नाही, तसेच ती पदे सुधारित आकृतीबंधानुसार मंजूर झालेल्या ४५२९७ पदांच्या मर्यादेत आहेत व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ४२ पदांना संबंधित कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत

किंवा दि.३१/०८/२०२५ यापैकी जे अगोदर घडेल तो पर्यंत, या अटीच्या अधीन राहून दि.०१/०३/२०२५ ते दि.३१/०८/२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

२. उपरोक्त पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत राहतील.

३. ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्त नसतील, तसेच पदे व्यपगत झालेली नसतील.

४. रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चालू राहतील.

५. अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, छत्रपती संभाजीनगर यांनी संदर्भ क्र.४ अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावातील उपलब्ध माहितीनुसार पदांची संख्या/पदामधील घट/पदामधील वाढ/सेवानिवृत्ती इ. माहिती अंतिम/अचूक आहे, असे गृहीत धरून पदांना मुदतवाढ देण्यात येत आहे. तसेच यानुषंगाने शासनास पाठविलेल्या प्रस्तावातील पदांची आकडेवारी ही अचूक असल्याची खातरजमा ही संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाने आपल्यास्तरावर करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून तसेच याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाची असल्याने गृहीत धरून पदांना मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

६. या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विहित वेळेत सादर करण्यात यावा.

हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि.०३/०३/२०२५ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून निर्गमित करण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२५०४०७१५४५५५८३२७ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(प्रज्ञा मेश्राम)

सहपत्र : परिशिष्टे - “अ” व विवरणपत्र क्र. “०१ ते ०८”

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

प्रत :-

१. महालेखापाल-१, (लेखा परीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई .

२. महालेखापाल-२, (लेखा परीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर .
३. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, छत्रपती संभाजीनगर .
४. अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा ई प्रशासन मंडळ, पुणे.
५. अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , छत्रपती संभाजीनगर .

त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन देयके अदा केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहिल. त्याचप्रमाणे अस्थायी पदांना मुदतवाढ देत असताना, वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयातील सूचना/अटींची पूर्तता होत असल्याबाबत खातरजमा करण्याबाबतची जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहिल.

६. जिल्हा कोषागार कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर .
७. कक्ष अधिकारी, आ(प्रशि/अर्थ-१/२) , जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
८. वित्त विभाग (व्यय - १२) /वित्तिय सुधारणा/विनिमय/ (अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई.
९. लाक्षेवि(आस्था) कार्यासन, निवडनस्ती.

शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२५/प्र.क्र.६५/२५/लाक्षेवि (आस्था), दि. ०७/०८/२०२५ चे सहपत्र.

परिशिष्ट- "अ"

अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, छत्रपती संभाजीनगर अंतर्गत
कार्यालयातील नियत व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे

अ.क्र.	कार्यालयाचे नाव	दि.०१/०३/२०२५ ते दि.३१/०८/२०२५ पर्यंत मुदतवाढ		मुख्य लेखाशीर्ष व उपलेखाशीर्ष
		सुधारीत आकृतीबंधानुसार मंजूर पदे नियत अस्थायी आस्थापना	रुपांतरीत अस्थायी आस्थापना	
१.	अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण छत्रपती संभाजीनगर	३१ (विवरणपत्र-१)	-	अ - मागणी क्रमांक आय-३ १) २७०१- मध्यम पाटबंधारे, (८०) सर्वसाधारण, (००१) संचालन व प्रशासन, (०८) परिरक्षण आस्थापना (०८)(१२) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, छत्रपती संभाजीनगर (अनिवार्य) (२७०१ ९९८७)
२.	कार्यकारी अभियंता छत्रपती संभाजीनगर पाटबंधारे विभाग, छत्रपती संभाजीनगर.	३३८ (एकूण पदे ३४४ त्यापैकी स्थायी पदे-६) (विवरणपत्र-२)	१० (विवरणपत्र-८)	ब- मागणी क्र.आय-३ २७०५ लाभक्षेत्र विकास, (८०) सर्वसाधारण ४२६, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, छत्रपती संभाजीनगर (००) (००)(०७) प्रशासकांची आस्थापना (अनिवार्य)
३.	कार्यकारी अभियंता, जायकवाडी पाटबंधारे विभाग, नाथनगर (३), पैठण	५९४ (विवरणपत्र-३)	१५ (विवरणपत्र-८)	
४.	कार्यकारी अभियंता, जायकवाडी पाटबंधारे विभाग क्र-२ परभणी	८४० (विवरणपत्र-४)	०८ (विवरणपत्र-८)	

अ.क्र.	कार्यालयाचे नाव	दि.०१/०३/२०२५ ते दि.३१/०८/२०२५ पर्यंत मुदतवाढ		मुख्य लेखाशीर्ष व उपलेखाशीर्ष
		सुधारीत आकृतीबंधानुसार मंजूर पदे नियत अस्थायी आस्थापना	रुपांतरीत अस्थायी आस्थापना	
५.	कार्यकारी अभियंता, नांदुर मधमेश्वर पाटबंधारे विभाग, वैजापूर.	२२२ (विवरणपत्र-५)	०४ (विवरणपत्र-८)	(२७०५ ३५८७) क- मागणी क्र. आय-३ २७०१ -मध्यम पाटबंधारे, ८०- सर्वसाधारण, ००१-संचालन व प्रशासन (०६)- लाभक्षेत्र विकास आस्थापना, (०६) (०६) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, छत्रपती संभाजीनगर (अनिवार्य) (२७०१ बी २१५)
६.	कार्यकारी अभियंता, जालना पाटबंधारे विभाग, जालना.	३१४ (एकूण पदे ३३० त्यापैकी स्थायी पदे-१६) (विवरणपत्र-६)	०५ (विवरणपत्र-८)	ड- मागणी क्र. आय-५ ४७०१ मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, ८०- सर्वसाधारण, (००१) संचालन व प्रशासन
७.	कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातील एकात्मिक पथक, छत्रपती संभाजीनगर .	१५ (विवरणपत्र-७)	-	
एकूण		२३५४ (एकूण पदे २३७६ त्यापैकी नियत अस्थायी पदे- २३५४, स्थायी पदे-२२)	४२	

(प्रज्ञा मेश्राम)
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२५/प्र.क्र.६५/२५/लाक्षेवि (आस्था), दि.०७/०४/२०२५ चे सहपत्र.

विवरणपत्र -०१

अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, छत्रपती संभाजीनगर या
कार्यालयातील
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना
दि.०१/०३/२०२५ ते दि.३१/०८/२०२५ पर्यंत मुदतवाढ.

अ.क्र.	पदाचे नाव	लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, छत्रपती संभाजीनगर (मंडळ कार्यालय)
१	२	३
१	अधीक्षक अभियंता व प्रशासक	१
२	कार्यकारी अभियंता	--
३	उप कार्यकारी अभियंता	--
४	उप विभागीय अभियंता/ अधिकारी/ (सहाय्यक अधीक्षक अभियंता)/ सहाय्यक अधीक्षक अभियंता श्रेणी-१	१
५	शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता/ सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२	३
६	स्था.अ.सहाय्यक	--
७	विभागीय लेखापाल/लेखाधिकारी	--
८	अधीक्षक	१
९	प्रथम लिपीक	१
१०	मुख्य आरेखक	१
११	विभागीय भांडारपाल	--
१२	सहा. आरेखक (आरेखक श्रे-२)	१
१३	उच्चश्रेणी लघुलेखक	१
१४	वरिष्ठ दप्तर कारकुन	१
१५	वरिष्ठ लिपीक	४
१६	अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३)	--

अ.क्र.	पदाचे नाव	लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, छत्रपती संभाजीनगर (मंडळ कार्यालय)
१	२	३
१७	कनिष्ठ लिपीक (कनिष्ठ लिपीक/ टंकलेखक-मंडळ कारकून)	४
१८	टंकलेखक	३
१९	लेखाधिकारी	१
२०	प्रमुख दप्तर कारकून	१
२१	दप्तर कारकून	--
२२	आरेखक (आरेखक श्रेणी-१)	--
२३	निम्नश्रेणी लघुलेखक	--
२४	संगणक कार्यक्रम चालक	--
२५	संगणक	१
२६	सहा. भांडारपाल/ भांडार लिपीक	--
२७	कालवा निरीक्षक	--
२८	मोजणीदार	--
२९	प्रयोगशाळा सहाय्यक	--
३०	वाहन चालक	१
३१	संदेशक	--
३२	अमीन	--
३३	नाईक	१
३४	शिपाई	३
३५	चौकीदार	१
३६	कालवा टपाली	--
३७	कालवा चौकीदार	--
३८	प्रयोगशाळा परिचर	--
३९	दप्तरी	--
	एकुण :-	३१

(प्रज्ञा मेश्राम)
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२५/प्र.क्र.६५/२५/लाक्षेवि (आस्था), दि. ०७/०४/२०२५ चे सहपत्र..

विवरणपत्र - ०२

अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, छत्रपती संभाजीनगर या कार्यालयांतर्गत
छत्रपती संभाजीनगर पाटबंधारे विभाग, छत्रपती संभाजीनगर या कार्यालयातील
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना
दि.०१/०३/२०२५ ते दि.३१/०८/२०२५ पर्यंत मुदतवाढ

अ. क्र.	पदाचे नाव	विभागीय कार्यालय औरंगाबाद पाटबंधारे विभाग, छत्रपती संभाजीनगर	औरंगाबाद पाटबंधारे उपविभाग क्र.१, छत्रपती संभाजीनगर (उपविभागीय कार्यालय)	छत्रपती संभाजी नगर पाटबंधारे सिंचन शाखा क्र.१, छत्रपती संभाजी नगर (शाखा कार्यालय)	छत्रपती संभाजीनगर पाटबंधारे सिंचन शाखा क्र.२, चित्तेपिंपळ गाव (शाखा कार्यालय)	छत्रपती संभाजी नगर पाटबंधारे सिंचन शाखा क्र.३, बिडकिन (शाखा कार्यालय)	छत्रपती संभाजीनगर पाटबंधारे उपविभाग क्र.२, औरंगाबाद (उपविभागीय कार्यालय)
१	२	३	४	५	६	७	८
१	अधीक्षक अभियंता व प्रशासक	--	--	--	--	--	--
२	कार्यकारी अभियंता	१	--	--	--	--	--
३	उप कार्यकारी अभियंता	१	--	--	--	--	--
४	उप विभागीय अभियंता/ अधिकारी/ (सहाय्यक	--	१	--	--	--	१

अ. क्र.	पदाचे नाव	विभागीय कार्यालय औरंगाबाद पाटबंधारे विभाग, छत्रपती संभाजीनगर	औरंगाबाद पाटबंधारे उपविभाग क्र.१, छत्रपती संभाजीनगर (उपविभागीय कार्यालय)	छत्रपती संभाजीनगर पाटबंधारे सिंचन शाखा क्र.१, छत्रपती संभाजीनगर (शाखा कार्यालय)	छत्रपती संभाजीनगर पाटबंधारे सिंचन शाखा क्र.२, चित्तेपिंपळ गाव (शाखा कार्यालय)	छत्रपती संभाजीनगर पाटबंधारे सिंचन शाखा क्र.३, बिडकिन (शाखा कार्यालय)	छत्रपती संभाजीनगर पाटबंधारे उपविभाग क्र.२, औरंगाबाद (उपविभागीय कार्यालय)
१	२	३	४	५	६	७	८
	अधीक्षक अभियंता)/ सहाय्यक अधीक्षक अभियंता श्रेणी-१						
५	शाखा अभियंता/क निष्ठ अभियंता/ सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२	४	१	१	-	-	१
६	स्था.अ.सहाय्यक	--	--	१	१	१	--
७	विभागीय लेखापाल/लेखाधिकारी	१	--	--	--	--	--
८	अधीक्षक	--	--	--	--	--	--
९	प्रथम लिपीक	१	--	--	--	--	--
१०	मुख्य आरेखक	--	--	--	--	--	--

अ. क्र.	पदाचे नाव	विभागीय कार्यालय औरंगाबाद पाटबंधारे विभाग, छत्रपती संभाजीनगर	औरंगाबाद पाटबंधारे उपविभाग क्र.१, छत्रपती संभाजीनगर (उपविभागीय कार्यालय)	छत्रपती संभाजीनगर पाटबंधारे सिंचन शाखा क्र.१, छत्रपती संभाजीनगर (शाखा कार्यालय)	छत्रपती संभाजीनगर पाटबंधारे सिंचन शाखा क्र.२, चित्तेपिंपळ गाव (शाखा कार्यालय)	छत्रपती संभाजीनगर पाटबंधारे सिंचन शाखा क्र.३, बिडकिन (शाखा कार्यालय)	छत्रपती संभाजीनगर पाटबंधारे उपविभाग क्र.२, औरंगाबाद (उपविभागीय कार्यालय)
१	२	३	४	५	६	७	८
११	विभागीय भांडारपाल	१	--	--	--	--	--
१२	सहा. आरेखक (आरेखक श्रे-२)	१	--	--	--	--	--
१३	उच्चश्रेणी लघुलेखक	--	--	--	--	--	--
१४	वरिष्ठ दप्तर कारकुन	१	--	--	--	--	--
१५	वरिष्ठ लिपीक	५	१	--	--	--	१
१६	अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३)	--	१	--	--	--	१
१७	कनिष्ठ लिपीक (कनिष्ठ लिपीक/ टंकलेखक-मंडळ कारकून)	४	२	--	--	--	२

अ. क्र.	पदाचे नाव	विभागीय कार्यालय औरंगाबाद पाटबंधारे विभाग, छत्रपती संभाजीनगर	औरंगाबाद पाटबंधारे उपविभाग क्र.१, छत्रपती संभाजीनगर (उपविभागीय कार्यालय)	छत्रपती संभाजीनगर पाटबंधारे सिंचन शाखा क्र.१, छत्रपती संभाजीनगर (शाखा कार्यालय)	छत्रपती संभाजीनगर पाटबंधारे सिंचन शाखा क्र.२, चित्तेपिंपळ गाव (शाखा कार्यालय)	छत्रपती संभाजीनगर पाटबंधारे सिंचन शाखा क्र.३, बिडकिन (शाखा कार्यालय)	छत्रपती संभाजीनगर पाटबंधारे उपविभाग क्र.२, औरंगाबाद (उपविभागीय कार्यालय)
१	२	३	४	५	६	७	८
१८	टंकलेखक	३	१	--	--	--	१
१९	लेखाधिकारी	--	--	--	--	--	--
२०	प्रमुख दप्तर कारकुन	--	--	--	--	--	--
२१	दप्तर कारकुन	३	२	२	२	२	२
२२	आरेखक (आरेखक श्रेणी-१)	१	--	--	--	--	--
२३	निम्नश्रेणी लघुलेखक	--	--	--	--	--	--
२४	संगणक कार्यक्रम चालक	--	--	--	--	--	--
२५	संगणक	--	--	--	--	--	--
२६	सहा. भांडारपाल/ भांडार लिपीक	१	--	--	--	--	--
२७	कालवा निरीक्षक	--	--	८	८	८	--

अ. क्र.	पदाचे नाव	विभागीय कार्यालय औरंगाबाद पाटबंधारे विभाग, छत्रपती संभाजीनगर	औरंगाबाद पाटबंधारे उपविभाग क्र.१, छत्रपती संभाजीनगर (उपविभागीय कार्यालय)	छत्रपती संभाजीनगर पाटबंधारे सिंचन शाखा क्र.१, छत्रपती संभाजीनगर (शाखा कार्यालय)	छत्रपती संभाजीनगर पाटबंधारे सिंचन शाखा क्र.२, वित्तेपिंपळ गाव (शाखा कार्यालय)	छत्रपती संभाजीनगर पाटबंधारे सिंचन शाखा क्र.३, बिडकिन (शाखा कार्यालय)	छत्रपती संभाजीनगर पाटबंधारे उपविभाग क्र.२, औरंगाबाद (उपविभागीय कार्यालय)
१	२	३	४	५	६	७	८
२८	मोजणीदार	--	--	४	४	४	--
२९	प्रयोगशाळा सहाय्यक	--	--	--	--	--	--
३०	वाहन चालक	१	१	--	--	--	१
३१	संदेशक	--	--	१	१	१	--
३२	अमीन	--	--	--	--	--	--
३३	नाईक	१	--	--	--	--	--
३४	शिपाई	५	२	१	१	१	२
३५	चौकीदार	१	१	--	--	--	१
३६	कालवा टपाली	--	--	१	१	१	--
३७	कालवा चौकीदार	--	--	३	३	३	--
३८	प्रयोगशाळा परिचर	--	--	--	--	--	--
३९	दफ्तरी	--	--	--	--	--	--
	एकुण :-	३६	१३	२२	२२	२२	१३

अ.क्र	पदाचे नांव	छत्रपती संभाजी नगर पाटबंधा रे सिंचन शाखा क्र.४, येसगाव (शाखा कार्याल य)	औ.बाद पाटबंधा रे सिंचन शाखा क्र.५, फुलंब्री (शाखा कार्याल य)	औ.बाद पाटबंधा रे सिंचन शाखा क्र.६, वाकोद (शाखा कार्याल य)	औ.बाद पाटबंधा रे सिंचन शाखा क्र.७, खुलता बाद (शाखा कार्याल य)	औ.बाद पाटबंधा रे उपविभा ग क्र.३, कन्नड (उपविभा गीय कार्याल य)	औ.बा द पाटबंधा रे सिंचन शाखा क्र.८, कन्नड (शा खा कार्या लय)	औ.बाद पाटबंधा रे सिंचन शाखा क्र.९, पुर्णा नेवपूर (शाखा कार्याल य)
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	अधीक्षक अभियंता व प्रशासक	--	--	--	--	--	--	--
२	कार्यकारी अभियंता	--	--	--	--	--	--	--
३	उप कार्यकारी अभियंता	--	--	--	--	--	--	--
४	उप विभागीय अभियंता/ अधिकारी/ (सहाय्यक अधीक्षक अभियंता)/ सहाय्यक अधीक्षक अभियंता श्रेणी- १	--	--	--	--	१	--	--
५	शाखा अभियंता/कनि ष्ठ अभियंता/ सहाय्यक अभियंता श्रेणी- २	१	--	--	--	१	१	--

अ.क्र	पदाचे नांव	छत्रपती संभाजी नगर पाटबंधा रे सिंचन शाखा क्र.४, येसगाव (शाखा कार्यालय)	औ.बाद पाटबंधा रे सिंचन शाखा क्र.५, फुलंब्री (शाखा कार्यालय)	औ.बाद पाटबंधा रे सिंचन शाखा क्र.६, वाकोद (शाखा कार्यालय)	औ.बाद पाटबंधा रे सिंचन शाखा क्र.७, खुलता बाद (शाखा कार्यालय)	औ.बाद पाटबंधा रे उपविभाग क्र.३, कन्नड (उपविभागीय कार्यालय)	औ.बाद पाटबंधा रे सिंचन शाखा क्र.८, कन्नड (शाखा कार्यालय)	औ.बाद पाटबंधा रे सिंचन शाखा क्र.९, पुर्णा नेवपूर (शाखा कार्यालय)
१	२	३	४	५	६	७	८	९
६	स्था.अ.सहाय्यक	१	--	--	--	--	१	--
७	विभागीय लेखापाल/लेखाधिकारी	--	--	--	--	--	--	--
८	अधीक्षक	--	--	--	--	--	--	--
९	प्रथम लिपीक	--	--	--	--	--	--	--
१०	मुख्य आरेखक	--	--	--	--	--	--	--
११	विभागीय भांडारपाल	--	--	--	--	--	--	--
१२	सहा. आरेखक (आरेखक श्रे-२)	--	--	--	--	--	--	--
१३	उच्चश्रेणी लघुलेखक	--	--	--	--	--	--	--
१४	वरिष्ठ दप्तर कारकुन	--	--	--	--	--	--	--
१५	वरिष्ठ लिपीक	--	--	--	--	१	--	--
१६	अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३)	--	--	--	--	१	--	--
१७	कनिष्ठ लिपीक (कनिष्ठ	--	--	--	--	२	--	--

अ.क्र	पदाचे नांव	छत्रपती संभाजी नगर पाटबंधा रे सिंचन शाखा क्र.४, येसगाव (शाखा कार्यालय)	औ.बाद पाटबंधा रे सिंचन शाखा क्र.५, फुलंब्री (शाखा कार्यालय)	औ.बाद पाटबंधा रे सिंचन शाखा क्र.६, वाकोद (शाखा कार्यालय)	औ.बाद पाटबंधा रे सिंचन शाखा क्र.७, खुलता बाद (शाखा कार्यालय)	औ.बाद पाटबंधा रे उपविभाग क्र.३, कन्नड (उपविभागीय कार्यालय)	औ.बाद पाटबंधा रे सिंचन शाखा क्र.८, कन्नड (शाखा कार्यालय)	औ.बाद पाटबंधा रे सिंचन शाखा क्र.९, पुर्णा नेवपूर (शाखा कार्यालय)
१	२	३	४	५	६	७	८	९
	लिपीक/ टंकलेखक- मंडळ कारकून)							
१८	टंकलेखक	--	--	--	--	१	--	--
१९	लेखाधिकारी	--	--	--	--	--	--	--
२०	प्रमुख दप्तर कारकून	--	--	--	--	--	--	--
२१	दप्तर कारकून	२	--	--	--	२	२	--
२२	आरेखक (आरेखक श्रेणी-१)	--	--	--	--	--	--	--
२३	निम्नश्रेणी लघुलेखक	--	--	--	--	--	--	--
२४	संगणक कार्यक्रम चालक	--	--	--	--	--	--	--
२५	संगणक	--	--	--	--	--	--	--
२६	सहा. भांडारपाल/ भांडार लिपीक	--	--	--	--	--	--	--
२७	कालवा निरीक्षक	८	--	--	--	--	८	--

अ.क्र	पदाचे नांव	छत्रपती संभाजी नगर पाटबंधा रे सिंचन शाखा क्र.४, येसगाव (शाखा कार्यालय)	औ.बाद पाटबंधा रे सिंचन शाखा क्र.५, फुलंब्री (शाखा कार्यालय)	औ.बाद पाटबंधा रे सिंचन शाखा क्र.६, वाकोद (शाखा कार्यालय)	औ.बाद पाटबंधा रे सिंचन शाखा क्र.७, खुलता बाद (शाखा कार्यालय)	औ.बाद पाटबंधा रे उपविभाग क्र.३, कन्नड (उपविभागीय कार्यालय)	औ.बाद पाटबंधा रे सिंचन शाखा क्र.८, कन्नड (शाखा कार्यालय)	औ.बाद पाटबंधा रे सिंचन शाखा क्र.९, पुर्णा नेवपूर (शाखा कार्यालय)
१	२	३	४	५	६	७	८	९
२८	मोजणीदार	४	--	--	--	--	४	--
२९	प्रयोगशाळा सहाय्यक	--	--	--	--	--	--	--
३०	वाहन चालक	--	--	--	--	१	--	--
३१	संदेशक	१	--	--	--	--	१	--
३२	अमीन	--	--	--	--	--	--	--
३३	नाईक	--	--	--	--	--	--	--
३४	शिपाई	१	--	--	--	२	१	--
३५	चौकीदार	--	--	--	--	१	--	--
३६	कालवा टपाली	१	--	--	--	--	१	--
३७	कालवा चौकीदार	३	--	--	--	--	३	--
३८	प्रयोगशाळा परिचर	--	--	--	--	--	--	--
३९	दफ्तरी	--	--	--	--	--	--	--
	एकुण :-	२२	--	--	--	१३	२२	--

अ. क्र.	पदाचे नाव	औ'बाद पाटबंधारे सिंचन शाखा क्र.१०, कन्नड (शाखा कार्यालय)	औ'बाद पाटबंधारे सिंचन शाखा क्र.११, देवगाव रंगारी (शाखा कार्यालय)	औ'बाद पाटबंधारे उपविभाग क्र.४, कन्नड (उपविभागीय कार्यालय)	औ'बाद पाटबंधारे सिंचन शाखा क्र.१२, कन्नड (शाखा कार्यालय)	औ'बाद पाटबंधारे सिंचन शाखा क्र.१३, शिवना टाकळी (शाखा कार्यालय)	औ'बाद पाटबंधारे सिंचन शाखा क्र.१४, शिवना टाकळी (शाखा कार्यालय)	औ'बाद पाटबंधारे सिंचन शाखा क्र.१५, गारज (शाखा कार्यालय)
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	अधीक्षक अभियंता व प्रशासक	--	--	--	--	--	--	--
२	कार्यकारी अभियंता	--	--	--	--	--	--	--
३	उप कार्यकारी अभियंता	--	--	--	--	--	--	--
४	उप विभागीय अभियंता/ अधिकारी/ (सहाय्यक अधीक्षक अभियंता)/ सहाय्यक अधीक्षक अभियंता श्रेणी-१	--	--	१	--	--	--	--
५	शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता/ सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२	--	--	४	--	--	--	१
६	स्था.अ.सहाय्यक	--	--	४	--	--	--	१
७	विभागीय लेखापाल/लेखाधिकारी	--	--	--	--	--	--	--
८	अधीक्षक	--	--	--	--	--	--	--
९	प्रथम लिपीक	--	--	--	--	--	--	--

अ. क्र.	पदाचे नाव	औ'बाद पाटबंधारे सिंचन शाखा क्र.१०, कन्नड (शाखा कार्यालय)	औ'बाद पाटबंधारे सिंचन शाखा क्र.११, देवगाव रंगारी (शाखा कार्यालय)	औ'बाद पाटबंधारे उपविभाग क्र.४, कन्नड (उपविभागीय कार्यालय)	औ'बाद पाटबंधारे सिंचन शाखा क्र.१२, कन्नड (शाखा कार्यालय)	औ'बाद पाटबंधारे सिंचन शाखा क्र.१३, शिवना टाकळी (शाखा कार्यालय)	औ'बाद पाटबंधारे सिंचन शाखा क्र.१४, शिवना टाकळी (शाखा कार्यालय)	औ'बाद पाटबंधारे सिंचन शाखा क्र.१५, गारज (शाखा कार्यालय)
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१०	मुख्य आरेखक	--	--	--	--	--	--	--
११	विभागीय भांडारपाल	--	--	--	--	--	--	--
१२	सहा. आरेखक (आरेखक श्रे-२)	--	--	--	--	--	--	--
१३	उच्चश्रेणी लघुलेखक	--	--	--	--	--	--	--
१४	वरिष्ठ दप्तर कारकुन	--	--	--	--	--	--	--
१५	वरिष्ठ लिपीक	--	--	१	--	--	--	--
१६	अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३)	--	--	१	--	--	--	--
१७	कनिष्ठ लिपीक (कनिष्ठ लिपीक/ टंकलेखक-मंडळ कारकून)	--	--	२	--	--	--	--
१८	टंकलेखक	--	--	१	--	--	--	--
१९	लेखाधिकारी	--	--	--	--	--	--	--
२०	प्रमुख दप्तर कारकुन	--	--	--	--	--	--	--
२१	दप्तर कारकुन	--	--	--	--	--	--	२
२२	आरेखक (आरेखक श्रेणी-१)	--	--	--	--	--	--	--
२३	निम्नश्रेणी लघुलेखक	--	--	--	--	--	--	--

अ. क्र.	पदाचे नाव	औ'बाद पाटबंधारे सिंचन शाखा क्र.१०, कन्नड (शाखा कार्यालय)	औ'बाद पाटबंधारे सिंचन शाखा क्र.११, देवगाव रंगारी (शाखा कार्यालय)	औ'बाद पाटबंधारे उपविभाग क्र.४, कन्नड (उपविभागीय कार्यालय)	औ'बाद पाटबंधारे सिंचन शाखा क्र.१२, कन्नड (शाखा कार्यालय)	औ'बाद पाटबंधारे सिंचन शाखा क्र.१३, शिवना टाकळी (शाखा कार्यालय)	औ'बाद पाटबंधारे सिंचन शाखा क्र.१४, शिवना टाकळी (शाखा कार्यालय)	औ'बाद पाटबंधारे सिंचन शाखा क्र.१५, गारज (शाखा कार्यालय)
१	२	३	४	५	६	७	८	९
२४	संगणक कार्यक्रम चालक	--	--	--	--	--	--	--
२५	संगणक	--	--	--	--	--	--	--
२६	सहा. भांडारपाल/ भांडार लिपीक	--	--	--	--	--	--	--
२७	कालवा निरीक्षक	--	--	--	--	--	--	८
२८	मोजणीदार	--	--	--	--	--	--	४
२९	प्रयोगशाळा सहाय्यक	--	--	--	--	--	--	--
३०	वाहन चालक	--	--	१	--	--	--	--
३१	संदेशक	--	--	--	--	--	--	१
३२	अमीन	--	--	--	--	--	--	--
३३	नाईक	--	--	--	--	--	--	--
३४	शिपाई	--	--	२	--	--	--	१
३५	चौकीदार	--	--	१	--	--	--	--
३६	कालवा टपाली	--	--	--	--	--	--	१
३७	कालवा चौकीदार	--	--	--	--	--	--	३
३८	प्रयोगशाळा परिचर	--	--	--	--	--	--	--
३९	दप्तरी	--	--	--	--	--	--	--
	एकुण :-	--	--	१८	--	--	--	२२

अ. क्र	पदाचे नांव	औ'बाद पाटबंधारे उपविभाग क्र.५, सिल्लोड (उपविभागीय कार्यालय)	औ'बाद पाटबंधारे सिंचन शाखा क्र.१६, खेळणा (शाखा कार्यालय)	औ'बाद पाटबंधारे सिंचन शाखा क्र.१७, अर्जिठा (शाखा कार्यालय)	औ'बाद पाटबंधारे सिंचन शाखा क्र.१८, सोय गाव (शाखा कार्यालय)	औ'बाद पाटबंधारे सिंचन शाखा क्र.१९, सोय गाव (शाखा कार्यालय)	पैठण जलविद्युत उपविभाग, औ'बाद (उपविभागीय कार्यालय)	जलविद्युत उपविभाग क्र.९, छत्रपती संभाजीनगर (उपविभागीय कार्यालय)	एकुण पदे एकुण छत्रपती संभाजीनगर पाटबंधारे विभाग, छत्रपती संभाजीनगर
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	अधीक्षक अभियंता व प्रशासक	--	--	--	--	--	--	--	--
२	कार्यकारी अभियंता	--	--	--	--	--	--	--	१
३	उप कार्यकारी अभियंता	--	--	--	--	--	--	--	१
४	उप विभागीय अभियंता/ अधिकारी/ (सहाय्यक अधीक्षक अभियंता)/ सहाय्यक अधीक्षक अभियंता श्रेणी-१	१	--	--	--	--	१	-	६
५	शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता/ सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२	१	१	१	१	१	४	-	२६
६	स्था.अ.सहाय्यक	--	१	१	१	१	४	--	१८
७	विभागीय लेखापाल/लेखाधिका	--	--	--	--	--	--	--	१

अ. क्र.	पदाचे नाव	औ'बाद पाटबंधारे सिंचन शाखा क्र.१०, कन्नड (शाखा कार्यालय)	औ'बाद पाटबंधारे सिंचन शाखा क्र.११, देवगाव रंगारी (शाखा कार्यालय)	औ'बाद पाटबंधारे उपविभाग क्र.४, कन्नड (उपविभागीय कार्यालय)	औ'बाद पाटबंधारे सिंचन शाखा क्र.१२, कन्नड (शाखा कार्यालय)	औ'बाद पाटबंधारे सिंचन शाखा क्र.१३, शिवना टाकळी (शाखा कार्यालय)	औ'बाद पाटबंधारे सिंचन शाखा क्र.१४, शिवना टाकळी (शाखा कार्यालय)	औ'बाद पाटबंधारे सिंचन शाखा क्र.१५, गारज (शाखा कार्यालय)
१	२	३	४	५	६	७	८	९

	री								
८	अधीक्षक	--	--	--	--	--	--	--	--
९	प्रथम लिपीक	--	--	--	--	--	--	--	१
१०	मुख्य आरेखक	--	--	--	--	--	--	--	--
११	विभागीय भांडारपाल	--	--	--	--	--	--	--	१
१२	सहा. आरेखक (आरेखक श्रे-२)	--	--	--	--	--	--	--	१
१३	उच्चश्रेणी लघुलेखक	--	--	--	--	--	--	--	--
१४	वरिष्ठ दप्तर कारकुन	--	--	--	--	--	--	--	१
१५	वरिष्ठ लिपीक	१	--	--	--	--	१	-	११
१६	अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३)	१	--	--	--	--	१	-	६
१७	कनिष्ठ लिपीक (कनिष्ठ लिपीक/ टंकलेखक-मंडळ कारकून)	२	--	--	--	--	२	-	१६
१८	टंकलेखक	१	--	--	--	--	१	-	९
१९	लेखाधिकारी	--	--	--	--	--	--	--	--
२०	प्रमुख दप्तर कारकुन	--	--	--	--	--	--	--	--
२१	दप्तर कारकुन	२	२	२	२	२	--	--	३१
२२	आरेखक (आरेखक	--	--	--	--	--	--	--	१

अ. क्र.	पदाचे नाव	औ'बाद पाटबंधारे सिंचन शाखा क्र.१०, कन्नड (शाखा कार्यालय)	औ'बाद पाटबंधारे सिंचन शाखा क्र.११, देवगाव रंगारी (शाखा कार्यालय)	औ'बाद पाटबंधारे उपविभाग क्र.४, कन्नड (उपविभागीय कार्यालय)	औ'बाद पाटबंधारे सिंचन शाखा क्र.१२, कन्नड (शाखा कार्यालय)	औ'बाद पाटबंधारे सिंचन शाखा क्र.१३, शिवना टाकळी (शाखा कार्यालय)	औ'बाद पाटबंधारे सिंचन शाखा क्र.१४, शिवना टाकळी (शाखा कार्यालय)	औ'बाद पाटबंधारे सिंचन शाखा क्र.१५, गारज (शाखा कार्यालय)
१	२	३	४	५	६	७	८	९
	श्रेणी-१)							
२३	निम्नश्रेणी लघुलेखक	--	--	--	--	--	--	--
२४	संगणक कार्यक्रम चालक	--	--	--	--	--	--	--
२५	संगणक	--	--	--	--	--	--	--
२६	सहा. भांडारपाल/भांडार लिपीक	--	--	--	--	--	--	१
२७	कालवा निरीक्षक	--	८	८	८	८	--	८०
२८	मोजणीदार	--	४	४	४	४	--	४०
२९	प्रयोगशाळा सहाय्यक	--	--	--	--	--	--	--
३०	वाहन चालक	१	--	--	--	--	१	७
३१	संदेशक	--	१	१	१	१	--	१०
३२	अमीन	--	--	--	--	--	--	--
३३	नाईक	--	--	--	--	--	--	१
३४	शिपाई	२	१	१	१	१	२	२७
३५	चौकीदार	१	--	--	--	--	१	७
३६	कालवा टपाली	--	१	१	१	१	--	१०
३७	कालवा चौकीदार	--	३	३	३	३	--	३०
३८	प्रयोगशाळा परिचर	--	--	--	--	--	--	--
३९	दफ्तरी	--	--	--	--	--	--	--
	एकुण :-	१३	२२	२२	२२	२२	१८	३४४

अ. क्र.	पदाचे नाव	औ'बाद पाटबंधा रे सिंचन शाखा क्र.१०, कन्नड (शाखा कार्यालय)	औ'बाद पाटबंधारे सिंचन शाखा क्र.११, देवगाव रंगारी (शाखा कार्यालय)	औ'बाद पाटबंधारे उपविभाग क्र.४, कन्नड (उपविभा गीय कार्यालय)	औ'बाद पाटबंधा रे सिंचन शाखा क्र.१२, कन्नड (शाखा कार्यालय)	औ'बा द पाटबंधा रे सिंचन शाखा क्र.१३, शिवना टाकळी (शाखा कार्या लय)	औ'बाद पाटबंधारे सिंचन शाखा क्र.१४, शिवना टाकळी (शाखा कार्यालय)	औ'बाद पाटबंधारे सिंचन शाखा क्र.१५, गारज (शाखा कार्यालय)	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	
									(अ स्था यी पदे ३३८ व स्था यी पदे- ६)

(प्रज्ञा मेश्राम)
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२५/प्र.क्र.६५/२५/लाक्षेवि (आस्था), दि.०७/०८/२०२५ चे सहपत्र..

विवरणपत्र - ०३

अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, छत्रपती संभाजीनगर या कार्यालयातर्गत
जायकवाडी पाटबंधारे विभाग, नाथनगर (३), पैठण या कार्यालयातील
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना
दि.०१/०३/२०२५ ते दि.३१/०८/२०२५ पर्यंत मुदतवाढ

अ. क्र.	पदाचे नाव	विभागीय कार्यालय जायकवाडी पाटबंधारे विभाग, ना.न.(उ) पैठण	दगडी धरण उपविभाग क्र.१, नाथनगर (उ), पैठण (उपविभागीय कार्यालय)	पैठण धरण शाखा क्र.१, ना.न.(उ) पैठण (अस्ति) (शाखा कार्यालय)	पैठण धरण शाखा क्र.२, ना.न.(उ) पैठण (नवीन) (शाखा कार्यालय)	जा.पा . उप. वि.क्र. १, ना.न. (उ), पैठण (उप विभागीय कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.१, ना.न. (उ), पैठण (अस्ति) (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.२, विहामांडवा (अस्ति) (शाखा कार्यालय)
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	अधीक्षक अभियंता व प्रशासक	--	--	--	--	--	--	--
२	कार्यकारी अभियंता	१	--	--	--	--	--	--
३	उप कार्यकारी अभियंता	१	--	--	--	--	--	--
४	उप विभागीय अभियंता/ अधिकारी/ (सहाय्यक अधीक्षक अभियंता)/ सहाय्यक अधीक्षक	--	१	--	--	१	--	--

	अभियंता श्रेणी-१							
५	शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता/ सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२	४	१	१	--	१	१	१
६	स्था.अ.सहाय्यक	--	--	१	--	--	१	१
७	विभागीय लेखापाल/लेखाधि कारी	१	--	--	--	--	--	--
८	अधीक्षक	--	--	--	--	--	--	--
९	प्रथम लिपीक	१	--	--	--	--	--	--
१०	मुख्य आरेखक	--	--	--	--	--	--	--
११	विभागीय भांडारपाल	१	--	--	--	--	--	--
१२	सहा. आरेखक (आरेखक श्रे-२)	--	--	--	--	--	--	--
१३	उच्चश्रेणी लघुलेखक	--	--	--	--	--	--	--
१४	वरिष्ठ दप्तर कारकुन	१	--	--	--	--	--	--
१५	वरिष्ठ लिपीक	५	१	--	--	१	--	--
१६	अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३)	१	१	--	--	१	--	--
१७	कनिष्ठ लिपीक (कनिष्ठ लिपीक/ टंकलेखक-मंडळ कारकून)	४	२	--	--	२	--	--
१८	टंकलेखक	३	१	--	--	१	--	--
१९	लेखाधिकारी	--	--	--	--	--	--	--
२०	प्रमुख दप्तर कारकुन	--	--	--	--	--	--	--
२१	दप्तर कारकुन	३	२	२	--	२	२	२
२२	आरेखक (आरेखक	१	--	--	--	--	--	--

	श्रेणी-१)							
२३	निम्नश्रेणी लघुलेखक	--	--	--	--	--	--	--
२४	संगणक कार्यक्रम चालक	--	--	--	--	--	--	--
२५	संगणक	--	--	--	--	--	--	--
२६	सहा. भांडारपाल/ भांडार लिपीक	१	--	--	--	--	--	--
२७	कालवा निरीक्षक	--	--	८	--	--	८	८
२८	मोजणीदार	--	--	४	--	--	४	४
२९	प्रयोगशाळा सहाय्यक	--	--	--	--	--	--	--
३०	वाहन चालक	१	१	--	--	१	--	--
३१	संदेशक	--	--	१	--	--	१	१
३२	अमीन	--	--	--	--	--	--	--
३३	नाईक	१	--	--	--	--	--	--
३४	शिपाई	५	२	१	--	२	१	१
३५	चौकीदार	१	१	--	--	१	--	--
३६	कालवा टपाली	--	--	१	--	--	१	१
३७	कालवा चौकीदार	--	--	३	--	--	३	३
३८	प्रयोगशाळा परिचर	--	--	--	--	--	--	--
३९	दफ्तरी	--	--	--	--	--	--	--
	एकुण :-	३६	१३	२२	--	१३	२२	२२

अ. क्र.	पदाचे नांव	सिंचन शाखा क्र.३, विहा मांडवा (अस्ति) (शाखा कार्यालय)	जा.पा.उ पविभाग क्र.३, तीर्थपुरी (उपविभागीय कार्यालय)	पैठण मुख्य डा.का.उ पसा सिंचन शाखा, विहामांडवा (अस्ति) (शाखा कार्यालय)	पैठण मुख्य डा.का.उ पसा सिंचन शाखा, तीर्थपुरी (अस्ति) (शाखा कार्यालय)	पैठण मुख्य डा.का.उपसा सिंचन शाखा, आष्टी (अस्ति) (शाखा कार्यालय)	जोग लादे वी मंगरुळ बॅरेज परिचालन व देखभाल दुरुस्ती शाखा, तीर्थपुरी (नवीन) (शाखा कार्यालय)	राजाटाकळी व लोणी सावंगी बॅरेज परि. व देख. दुरुस्ती शाखा, आष्टी (नवीन) (शाखा कार्यालय)
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	अधीक्षक अभियंता व प्रशासक	--	--	--	--	--	--	--
२	कार्यकारी अभियंता	--	--	--	--	--	--	--
३	उप कार्यकारी अभियंता	--	--	--	--	--	--	--
४	उप विभागीय अभियंता/ अधिकारी/ (सहाय्यक अधीक्षक अभियंता)/ सहाय्यक अधीक्षक अभियंता श्रेणी-१	--	१	--	--	--	--	--
५	शाखा अभियंता/कनिष्ठ	१	१	१	१	१	--	--

	अभियंता/ सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२							
६	स्था.अ.सहाय्यक	१	--	१	१	१	--	--
७	विभागीय लेखापाल/लेखाधि कारी	--	--	--	--	--	--	--
८	अधीक्षक	--	--	--	--	--	--	--
९	प्रथम लिपीक	--	--	--	--	--	--	--
१०	मुख्य आरेखक	--	--	--	--	--	--	--
११	विभागीय भांडारपाल	--	--	--	--	--	--	--
१२	सहा. आरेखक (आरेखक श्रे-२)	--	--	--	--	--	--	--
१३	उच्चश्रेणी लघुलेखक	--	--	--	--	--	--	--
१४	वरिष्ठ दप्तर कारकुन	--	--	--	--	--	--	--
१५	वरिष्ठ लिपीक	--	१	--	--	--	--	--
१६	अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३)	--	१	--	--	--	--	--
१७	कनिष्ठ लिपीक (कनिष्ठ लिपीक/ टंकलेखक-मंडळ कारकून)	--	२	--	--	--	--	--
१८	टंकलेखक	--	१	--	--	--	--	--
१९	लेखाधिकारी	--	--	--	--	--	--	--
२०	प्रमुख दप्तर कारकुन	--	--	--	--	--	--	--
२१	दप्तर कारकुन	२	२	२	२	२	--	--
२२	आरेखक (आरेखक श्रेणी-१)	--	--	--	--	--	--	--
२३	निम्नश्रेणी लघुलेखक	--	--	--	--	--	--	--
२४	संगणक कार्यक्रम	--	--	--	--	--	--	--

	चालक							
२५	संगणक	--	--	--	--	--	--	--
२६	सहा. भांडारपाल/ भांडार लिपीक	--	--	--	--	--	--	--
२७	कालवा निरीक्षक	८	--	८	८	८	--	--
२८	मोजणीदार	४	--	४	४	४	--	--
२९	प्रयोगशाळा सहाय्यक	--	--	--	--	--	--	--
३०	वाहन चालक	--	१	--	--	--	--	--
३१	संदेशक	१	--	१	१	१	--	--
३२	अमीन	--	--	--	--	--	--	--
३३	नाईक	--	--	--	--	--	--	--
३४	शिपाई	१	२	१	१	१	--	--
३५	चौकीदार	--	१	--	--	--	--	--
३६	कालवा टपाली	१	--	१	१	१	--	--
३७	कालवा चौकीदार	३	--	३	३	३	--	--
३८	प्रयोगशाळा परिचर	--	--	--	--	--	--	--
३९	दप्तरी	--	--	--	--	--	--	--
	एकुण :-	२२	१३	२२	२२	२२	--	--
अ. क्र.	पदाचे नांव	जा.पा. उपविभा ग क्र.५, औ'बाद (उपवि भागीय कार्याल य)	जा.जला शय जलफुग वटा उपसा सिंचन शाखा, ना.न.(उ) , पैठण (अस्ति) (शाखा कार्याल य)	जा.जलाश य जलफुगव टा उपसा सिंचन शाखा क्र.१, गंगापुर (अस्ति) (शाखा कार्यालय)	ब्रम्हग व्हाण उपसा सिंचन शाखा, ब्रम्हग व्हाण (नवीन) (शाखा कार्या लय)	जायकवाडी जलाशय जलफुगवटा शाखा, वैजापुर (अस्ति) (शाखा कार्यालय)	बिगर सिंचन शाखा, नाथन गर (उ), पैठण (नवीन) (शाखा कार्या लय)	गोदाव री खोरे पुरपुरवा नुमान व बिनता री संदेश यंत्रणा, औ'बाद (नवीन) (शाखा कार्या लय)
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	अधीक्षक	--	--	--	--	--	--	--

	अभियंता व प्रशासक							
२	कार्यकारी अभियंता	--	--	--	--	--	--	--
३	उप कार्यकारी अभियंता	--	--	--	--	--	--	--
४	उप विभागीय अभियंता/ अधिकारी/ (सहाय्यक अधीक्षक अभियंता)/ सहाय्यक अधीक्षक अभियंता श्रेणी-१	१	--	--	--	--	--	--
५	शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता/ सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२	१	१	१	--	१	--	--
६	स्था.अ.सहाय्यक	--	१	१	--	१	--	--
७	विभागीय लेखापाल/लेखा धिकारी	--	--	--	--	--	--	--
८	अधीक्षक	--	--	--	--	--	--	--
९	प्रथम लिपीक	--	--	--	--	--	--	--
१०	मुख्य आरेखक	--	--	--	--	--	--	--
११	विभागीय भांडारपाल	--	--	--	--	--	--	--
१२	सहा. आरेखक (आरेखक श्रे-२)	--	--	--	--	--	--	--
१३	उच्चश्रेणी लघुलेखक	--	--	--	--	--	--	--
१४	वरिष्ठ दप्तर कारकुन	--	--	--	--	--	--	--

१५	वरिष्ठ लिपीक	१	--	--	--	--	--	--
१६	अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३)	१	--	--	--	--	--	--
१७	कनिष्ठ लिपीक (कनिष्ठ लिपीक/ टंकलेखक-मंडळ कारकून)	२	--	--	--	--	--	--
१८	टंकलेखक	१	--	--	--	--	--	--
१९	लेखाधिकारी	--	--	--	--	--	--	--
२०	प्रमुख दप्तर कारकून	--	--	--	--	--	--	--
२१	दप्तर कारकून	२	२	२	--	२	--	--
२२	आरेखक (आरेखक श्रेणी-१)	--	--	--	--	--	--	--
२३	निम्नश्रेणी लघुलेखक	--	--	--	--	--	--	--
२४	संगणक कार्यक्रम चालक	--	--	--	--	--	--	--
२५	संगणक	--	--	--	--	--	--	--
२६	सहा. भांडारपाल/ भांडार लिपीक	--	--	--	--	--	--	--
२७	कालवा निरीक्षक	--	८	८	--	८	--	--
२८	मोजणीदार	--	४	४	--	४	--	--
२९	प्रयोगशाळा सहाय्यक	--	--	--	--	--	--	--
३०	वाहन चालक	१	--	--	--	--	--	--
३१	संदेशक	--	१	१	--	१	--	--
३२	अमीन	--	--	--	--	--	--	--
३३	नाईक	--	--	--	--	--	--	--
३४	शिपाई	२	१	१	--	१	--	--
३५	चौकीदार	१	--	--	--	--	--	--
३६	कालवा टपाली	--	१	१	--	१	--	--

३७	कालवा चौकीदार	--	३	३	--	३	--	--
३८	प्रयोगशाळा परिचर	--	--	--	--	--	--	--
३९	दफ्तरी	--	--	--	--	--	--	--
	एकुण :-	१३	२२	२२	--	२२	--	--

अ. क्र.	पदाचे नांव	जा.पा.उप विभाग क्र.१४, वडीगोद्री (उपविभा गीय कार्यालय)	जायकवा डी सिंचन शाखा क्र.४, वडीगोद्री (अस्ति) (शाखा कार्याल य)	जायकवा डी सिंचन शाखा क्र.५, वडीगोद्री (अस्ति) (शाखा कार्याल य)	जायकवा डी सिंचन शाखा क्र.६, खापरदेव हिवरा (अस्ति) (शाखा कार्याल य)	जायकवा डी सिंचन शाखा क्र.७, तीर्थपुरी (अस्ति) (शाखा कार्यालय)	जायकवा डी सिंचन शाखा क्र.८, तीर्थपुरी (अस्ति) (शाखा कार्याल य)	जा.पा.उ पविभाग क्र.१५, तीर्थपुरी (उपविभा गीय कार्याल य)
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	अधीक्षक अभियंता व प्रशासक	--	--	--	--	--	--	--
२	कार्यकारी अभियंता	--	--	--	--	--	--	--
३	उप कार्यकारी अभियंता	--	--	--	--	--	--	--
४	उप विभागीय अभियंता/ अधिकारी/ (सहाय्यक अधीक्षक अभियंता)/ सहाय्यक अधीक्षक	१	--	--	--	--	--	१

	अभियंता श्रेणी-१							
५	शाखा अभियंता/ कनिष्ठ अभियंता/ सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२	१	१	१	१	१	१	१
६	स्था.अ.सहा य्यक	--	१	१	१	१	१	--
७	विभागीय लेखापाल/ले खाधिकारी	--	--	--	--	--	--	--
८	अधीक्षक	--	--	--	--	--	--	--
९	प्रथम लिपीक	--	--	--	--	--	--	--
१०	मुख्य आरेखक	--	--	--	--	--	--	--
११	विभागीय भांडारपाल	--	--	--	--	--	--	--
१२	सहा. आरेखक (आरेखक श्रे- २)	--	--	--	--	--	--	--
१३	उच्चश्रेणी लघुलेखक	--	--	--	--	--	--	--
१४	वरिष्ठ दप्तर कारकुन	--	--	--	--	--	--	--
१५	वरिष्ठ लिपीक	१	--	--	--	--	--	१
१६	अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३)	१	--	--	--	--	--	१

१७	कनिष्ठ लिपीक (कनिष्ठ लिपीक/ टंकलेखक- मंडळ कारकून)	२	--	--	--	--	--	२
१८	टंकलेखक	१	--	--	--	--	--	१
१९	लेखाधिकारी	--	--	--	--	--	--	--
२०	प्रमुख दप्तर कारकून	--	--	--	--	--	--	--
२१	दप्तर कारकून	२	२	२	२	२	२	२
२२	आरेखक (आरेखक श्रेणी-१)	--	--	--	--	--	--	--
२३	निम्नश्रेणी लघुलेखक	--	--	--	--	--	--	--
२४	संगणक कार्यक्रम चालक	--	--	--	--	--	--	--
२५	संगणक	--	--	--	--	--	--	--
२६	सहा. भांडारपाल/ भांडार लिपीक	--	--	--	--	--	--	--
२७	कालवा निरीक्षक	--	८	८	८	८	८	--
२८	मोजणीदार	--	४	४	४	४	४	--
२९	प्रयोगशाळा सहाय्यक	--	--	--	--	--	--	--
३०	वाहन चालक	१	--	--	--	--	--	१
३१	संदेशक	--	१	१	१	१	१	--
३२	अमीन	--	--	--	--	--	--	--
३३	नाईक	--	--	--	--	--	--	--

३४	शिपाई	२	१	१	१	१	१	२
३५	चौकीदार	१	--	--	--	--	--	१
३६	कालवा टपाली	--	१	१	१	१	१	--
३७	कालवा चौकीदार	--	३	३	३	३	३	--
३८	प्रयोगशाळा परिचर	--	--	--	--	--	--	--
३९	दफ्तरी	--	--	--	--	--	--	--
	एकुण :-	१३	२२	२२	२२	२२	२२	१३

अ. क्र.	पदाचे नांव	जा.पा सिंचन शाखा क्र.९, कुंभारपिं पळगांव (अस्ति) (शाखा कार्याल य)	जा.पा सिंचन शाखा क्र.१०, कुंभारपिं ळगांव (अस्ति) (शाखा कार्यालय)	जा.पा सिंचन शाखा क्र.११, कुंभारपिं ळगांव (अस्ति) (शाखा कार्यालय)	जा.पा सिंचन शाखा क्र.१२ , आष्टी (अ स्ति) (शा खा कार्या लय)	जायकवाडी जलाशय उपसा सिंचन उपविभाग, नेवासा फाटा ता.नेवासा, जि.अहमद नगर (उपविभाग कार्यालय)	जायकवा डी जलाशय जलफुग वटा सिंचन शाखा क्र.१, नेवासा (अस्ति) (शाखा कार्याल य)	जायकवा डी जलाशय जलफुग वटा सिंचन शाखा क्र.२, नेवासा (नवीन) (शाखा कार्याल य)
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	अधीक्षक अभियंता व प्रशासक	--	--	--	--	--	--	--
२	कार्यकारी अभियंता	--	--	--	--	--	--	--
३	उप कार्यकारी अभियंता	--	--	--	--	--	--	--

४	उप विभागीय अभियंता/ अधिकारी/ (सहाय्यक अधीक्षक अभियंता)/ सहाय्यक अधीक्षक अभियंता श्रेणी-१	--	--	--	--	१	--	--
५	शाखा अभियंता/क निष्ठ अभियंता/ सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२	१	१	१	१	४	१	--
६	स्था.अ.सहा य्यक	१	१	१	१	४	१	--
७	विभागीय लेखापाल/ले खाधिकारी	--	--	--	--	--	--	--
८	अधीक्षक	--	--	--	--	--	--	--
९	प्रथम लिपीक	--	--	--	--	--	--	--
१०	मुख्य आरेखक	--	--	--	--	--	--	--
११	विभागीय भांडारपाल	--	--	--	--	--	--	--
१२	सहा. आरेखक (आरेखक श्रे- २)	--	--	--	--	--	--	--
१३	उच्चश्रेणी लघुलेखक	--	--	--	--	--	--	--
१४	वरिष्ठ दप्तर कारकुन	--	--	--	--	--	--	--

१५	वरिष्ठ लिपीक	--	--	--	--	१	--	--
१६	अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३)	--	--	--	--	१	--	--
१७	कनिष्ठ लिपीक (कनिष्ठ लिपीक/ टंकलेखक- मंडळ कारकून)	--	--	--	--	२	--	--
१८	टंकलेखक	--	--	--	--	१	--	--
१९	लेखाधिकारी	--	--	--	--	--	--	--
२०	प्रमुख दप्तर कारकून	--	--	--	--	--	--	--
२१	दप्तर कारकून	२	२	२	२	--	२	--
२२	आरेखक (आरेखक श्रेणी-१)	--	--	--	--	--	--	--
२३	निम्नश्रेणी लघुलेखक	--	--	--	--	--	--	--
२४	संगणक कार्यक्रम चालक	--	--	--	--	--	--	--
२५	संगणक	--	--	--	--	--	--	--
२६	सहा. भांडारपाल/ भांडार लिपीक	--	--	--	--	--	--	--
२७	कालवा निरीक्षक	८	८	८	८	--	८	--
२८	मोजणीदार	४	४	४	४	--	४	--
२९	प्रयोगशाळा सहाय्यक	--	--	--	--	--	--	--

३०	वाहन चालक	--	--	--	--	१	--	--
३१	संदेशक	१	१	१	१	--	१	--
३२	अमीन	--	--	--	--	--	--	--
३३	नाईक	--	--	--	--	--	--	--
३४	शिपाई	१	१	१	१	२	१	--
३५	चौकीदार	--	--	--	--	१	--	--
३६	कालवा टपाली	१	१	१	१	--	१	--
३७	कालवा चौकीदार	३	३	३	३	--	३	--
३८	प्रयोगशाळा परिचर	--	--	--	--	--	--	--
३९	दफ्तरी	--	--	--	--	--	--	--
	एकुण :-	२२	२२	२२	२२	१८	२२	--

अ. क्र.	पदाचे नाव	जायकवाडी जलाशय जलफुगवटा सिंचन शाखा क्र.३, शेवगाव (अस्ति) (शाखा कार्यालय)	जायकवाडी जलाशय जलफुगवटा सिंचन शाखा क्र.४, शेवगाव (नवीन) (शाखा कार्यालय)	ताजनापुर उपसा सिंचन शाखा शेवगाव (नवीन) (शाखा कार्यालय)	एकुण पदे एकुण जायकवाडी पाटबंधारे विभाग, नाथनगर (उ) पैठण
१	२	३	४	५	६
१	अधीक्षक अभियंता व प्रशासक	--	--	--	--
२	कार्यकारी अभियंता	--	--	--	१
३	उप कार्यकारी अभियंता	--	--	--	१
४	उप विभागीय अभियंता/ अधिकारी/ (सहाय्यक अधीक्षक अभियंता)/ सहाय्यक अधीक्षक अभियंता श्रेणी-१	--	--	--	७
५	शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता/ सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२	१	--	--	३५
६	स्था.अ.सहाय्यक	१	--	--	२५

૭	વિભાગીય લેખાપાલ/લેખાધિકારી	--	--	--	૧
૮	અધીક્ષક	--	--	--	--
૯	પ્રથમ લિપીક	--	--	--	૧
૧૦	મુખ્ય આરેખક	--	--	--	--
૧૧	વિભાગીય માંડારપાલ	--	--	--	૧
૧૨	સહા. આરેખક (આરેખક શ્રે-૨)	--	--	--	--
૧૩	ઉચ્ચશ્રેણી લઘુલેખક	--	--	--	--
૧૪	વરિષ્ઠ દપ્તર કારકુન	--	--	--	૧
૧૫	વરિષ્ઠ લિપીક	--	--	--	૧૨
૧૬	અનુરેખક (આરેખક શ્રેણી-૩)	--	--	--	૮
૧૭	કનિષ્ઠ લિપીક (કનિષ્ઠ લિપીક/ ટંકલેખક- મંડલ કારકુન)	--	--	--	૧૮
૧૮	ટંકલેખક	--	--	--	૧૦
૧૯	લેખાધિકારી	--	--	--	--
૨૦	પ્રમુખ દપ્તર કારકુન	--	--	--	--
૨૧	દપ્તર કારકુન	૨	--	--	૫૭
૨૨	આરેખક (આરેખક શ્રેણી-૧)	--	--	--	૧
૨૩	નિમ્નશ્રેણી લઘુલેખક	--	--	--	--
૨૪	સંગણક કાર્યક્રમ ચાલક	--	--	--	--
૨૫	સંગણક	--	--	--	--
૨૬	સહા. માંડારપાલ/ માંડાર લિપીક	--	--	--	૧
૨૭	કાલવા નિરીક્ષક	૮	--	--	૧૬૮
૨૮	મોજણીદાર	૪	--	--	૮૪
૨૯	પ્રયોગશાળા સહાયક	--	--	--	--
૩૦	વાહન ચાલક	--	--	--	૮
૩૧	સંદેશક	૧	--	--	૨૧
૩૨	અમીન	--	--	--	--
૩૩	નાઈક	--	--	--	૧

३४	शिपाई	१	--	--	४०
३५	चौकीदार	--	--	--	८
३६	कालवा टपाली	१	--	--	२१
३७	कालवा चौकीदार	३	--	--	६३
३८	प्रयोगशाळा परिचर	--	--	--	--
३९	दफ्तरी	--	--	--	--
	एकुण :-	२२	--	--	५९४

(प्रज्ञा मेश्राम)
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन,

शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२५/प्र.क्र.६५/२५/लाक्षेवि (आस्था), दि. ०७/०८/२०२५ चे सहपत्र..

विवरणपत्र - ०४

अधीक्षक अभियंता व प्रशासक लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, छत्रपती संभाजीनगर या
कार्यालयांतर्गत जायकवाडी पाटबंधारे विभाग क्र.०२, परभणी
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना
दि.०१/०३/२०२५ ते दि.३१/०८/२०२५ पर्यंत मुदतवाढ

अ. क्र.	पदाचे नाव	विभागीय कार्याल य जायकवा डी पाटबंधा रे विभाग क्र.२, परभणी	जा.पा.उप विभाग क्र.६, पाथरी (उपविभा गीय कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.१, बोरगांव (शाखा कार्याल य)	सिंचन शाखा क्र.२, पाथरी (शाखा कार्या लय)	सिंचन शाखा क्र.३, गुंज (शाखा कार्या लय)	सिंचन शाखा क्र.४, बाभळ गांव (शाखा कार्या लय)	सिंच न शाखा क्र.५, बाभळ गांव (शा खा कार्या लय)
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	अधीक्षक अभियंता व प्रशासक	--	--	--	--	--	--	--
२	कार्यकारी अभियंता	१	--	--	--	--	--	--
३	उप कार्यकारी अभियंता	१	--	--	--	--	--	--
४	उप विभागीय अभियंता/ अधिकारी/ (सहाय्यक अधीक्षक अभियंता)/ सहाय्यक अधीक्षक अभियंता श्रेणी-१	--	१	--	--	--	--	--

अ. क्र.	पदाचे नाव	विभागीय कार्यालय जायकवाडी पाटबंधारे विभाग क्र.२, परभणी	जा.पा.उप विभाग क्र.६, पाथरी (उपविभागीय कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.१, बोरगांव (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.२, पाथरी (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.३, गुंज (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.४, बाभळगांव (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.५, बाभळगांव (शाखा कार्यालय)
१	२	३	४	५	६	७	८	९
५	शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता/ सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२	४	१	१	१	१	१	१
६	स्था. अ. सहाय्यक	--	--	१	१	१	१	१
७	विभागीय लेखापाल/लेखाधिकारी	१	--	--	--	--	--	--
८	अधिक्षक	--	--	--	--	--	--	--
९	प्रथम लिपीक	१	--	--	--	--	--	--
१०	मुख्य आरेखक	--	--	--	--	--	--	--
११	विभागीय भांडारपाल	१	--	--	--	--	--	--
१२	सहा. आरेखक (आरेखक श्रे-२)	१	--	--	--	--	--	--
१३	उच्चश्रेणी लघुलेखक	--	--	--	--	--	--	--
१४	वरिष्ठ दफ्तर कारकुन	१	--	--	--	--	--	--
१५	वरिष्ठ लिपीक	५	१	--	--	--	--	--
१६	अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३)	--	१	--	--	--	--	--
१७	कनिष्ठ लिपीक	४	२	--	--	--	--	--

अ. क्र.	पदाचे नाव	विभागीय कार्यालय जायकवाडी पाटबंधारे विभाग क्र.२, परभणी	जा.पा.उप विभाग क्र.६, पाथरी (उपविभागीय कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.१, बोरगांव (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.२, पाथरी (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.३, गुंज (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.४, बाभळगांव (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.५, बाभळगांव (शाखा कार्यालय)
१	२	३	४	५	६	७	८	९
	(कनिष्ठ लिपीक/ टंकलेखक-मंडळ कारकून)							
१८	टंकलेखक	३	१	--	--	--	--	--
१९	लेखाधिकारी	--	--	--	--	--	--	--
२०	प्रमुख दप्तर कारकून	--	--	--	--	--	--	--
२१	दप्तर कारकून	३	२	२	२	२	२	२
२२	आरेखक (आरेखक श्रेणी-१)	१	--	--	--	--	--	--
२३	लघुटंक./निम्नश्रेणी लघुलेखक	--	--	--	--	--	--	--
२४	संगणक कार्यक्रम चालक	--	--	--	--	--	--	--
२५	संगणक	--	--	--	--	--	--	--
२६	सहा. भांडारपाल/ भांडार लिपीक	१	--	--	--	--	--	--
२७	कालवा निरीक्षक	--	--	८	८	८	८	८
२८	मोजणीदार	--	--	४	४	४	४	४
२९	प्रयोगशाळा सहाय्यक	--	--	--	--	--	--	--
३०	वाहन चालक	१	१	--	--	--	--	--
३१	संदेशक	--	--	१	१	१	१	१
३२	अमीन	--	--	--	--	--	--	--

अ. क्र.	पदाचे नाव	विभागीय कार्यालय जायकवाडी पाटबंधारे विभाग क्र.२, परभणी	जा.पा.उप विभाग क्र.६, पाथरी (उपविभागीय कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.१, बोरगांव (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.२, पाथरी (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.३, गुंज (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.४, बाभळगांव (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.५, बाभळगांव (शाखा कार्यालय)
१	२	३	४	५	६	७	८	९
३३	नाईक	१	--	--	--	--	--	--
३४	शिपाई	५	२	१	१	१	१	१
३५	चौकीदार	१	१	--	--	--	--	--
३६	कालवा टपाली	--	--	१	१	१	१	१
३७	कालवा चौकीदार	--	--	३	३	३	३	३
३८	प्रयोगशाळा परिचर	--	--	--	--	--	--	--
३९	दफ्तरी	--	--	--	--	--	--	--
	एकुण :-	३६	१३	२२	२२	२२	२२	२२

अ. क्र.	पदाचे नांव	सिंचन शाखा क्र.६, वाघाळा (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.७, केकरजवळा (शाखा कार्यालय)	जा.पा.उप विभाग क्र.८, दैठणा (उपविभागीय कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.८, रुमणा (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.९, धारासुर (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.१०, रामपूरी (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.११, पोखर्णी (शाखा कार्यालय)
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	अधीक्षक अभियंता व प्रशासक	--	--	--	--	--	--	--

अ. क्र.	पदाचे नांव	सिचन शाखा क्र.६, वाघाळा (शाखा कार्यालय)	सिचन शाखा क्र.७, केकर जवळा (शाखा कार्यालय)	जा.पा.उ पविभाग क्र.८, दैठणा (उपविभागीय कार्यालय)	सिचन शाखा क्र.८, रुमणा (शाखा कार्यालय)	सिचन शाखा क्र.९, धारासुर (शाखा कार्यालय)	सिचन शाखा क्र.१०, रामपूरी (शाखा कार्यालय)	सिचन शाखा क्र.११, पोखर्णी (शाखा कार्यालय)
१	२	३	४	५	६	७	८	९
२	कार्यकारी अभियंता	--	--	--	--	--	--	--
३	उप कार्यकारी अभियंता	--	--	--	--	--	--	--
४	उप विभागीय अभियंता/ अधिकारी/ (सहाय्यक अधीक्षक अभियंता)/ सहाय्यक अधीक्षक अभियंता श्रेणी-१	--	--	१	--	--	--	--
५	शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता/ सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२	१	१	१	१	१	१	१
६	स्था. अ. सहाय्यक	१	१	--	१	१	१	१
७	विभागीय लेखापाल/लेखाधिकारी	--	--	--	--	--	--	--
८	अधीक्षक	--	--	--	--	--	--	--
९	प्रथम लिपीक	--	--	--	--	--	--	--
१०	मुख्य आरेखक	--	--	--	--	--	--	--
११	विभागीय	--	--	--	--	--	--	--

अ. क्र.	पदाचे नांव	सिंचन शाखा क्र.६, वाघाळा (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.७, केकर जवळा (शाखा कार्यालय)	जा.पा.उ पविभाग क्र.८, दैठणा (उपविभागीय कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.८, रुमणा (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.९, धारासुर (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.१०, रामपूरी (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.११, पोखर्णी (शाखा कार्यालय)
१	२	३	४	५	६	७	८	९
	भांडारपाल							
१२	सहा. आरेखक (आरेखक श्रे-२)	--	--	--	--	--	--	--
१३	उच्चश्रेणी लघुलेखक	--	--	--	--	--	--	--
१४	वरिष्ठ दप्तर कारकुन	--	--	--	--	--	--	--
१५	वरिष्ठ लिपीक	--	--	१	--	--	--	--
१६	अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३)	--	--	१	--	--	--	--
१७	कनिष्ठ लिपीक (कनिष्ठ लिपीक/ टंकलेखक- मंडळ कारकून)	--	--	२	--	--	--	--
१८	टंकलेखक	--	--	१	--	--	--	--
१९	लेखाधिकारी	--	--	--	--	--	--	--
२०	प्रमुख दप्तर कारकुन	--	--	--	--	--	--	--
२१	दप्तर कारकुन	२	२	२	२	२	२	२
२२	आरेखक (आरेखक श्रेणी-१)	--	--	--	--	--	--	--
२३	लघुटंक./ निम्नश्रेणी लघुलेखक	--	--	--	--	--	--	--

अ. क्र.	पदाचे नांव	सिचन शाखा क्र.६, वाघाळा (शाखा कार्याल य)	सिचन शाखा क्र.७, केकर जवळा (शाखा कार्यालय)	जा.पा.उ पविभाग क्र.८, दैठणा (उपविभा गीय कार्याल य)	सिचन शाखा क्र.८, रुमणा (शाखा कार्याल य)	सिचन शाखा क्र.९, धारासुर (शाखा कार्याल य)	सिचन शाखा क्र.१०, रामपूरी (शाखा कार्याल य)	सिचन शाखा क्र.११, पोखर्णी (शाखा कार्याल य)
१	२	३	४	५	६	७	८	९
२४	संगणक कार्यक्रम चालक	--	--	--	--	--	--	--
२५	संगणक	--	--	--	--	--	--	--
२६	सहा. भांडारपाल/ भांडार लिपीक	--	--	--	--	--	--	--
२७	कालवा निरीक्षक	८	८	--	८	८	८	८
२८	मोजणीदार	४	४	--	४	४	४	४
२९	प्रयोगशाळा सहाय्यक	--	--	--	--	--	--	--
३०	वाहन चालक	--	--	१	--	--	--	--
३१	संदेशक	१	१	--	१	१	१	१
३२	अमीन	--	--	--	--	--	--	--
३३	नाईक	--	--	--	--	--	--	--
३४	शिपाई	१	१	२	१	१	१	१
३५	चौकीदार	--	--	१	--	--	--	--
३६	कालवा टपाली	१	१	--	१	१	१	१
३७	कालवा चौकीदार	३	३	--	३	३	३	३
३८	प्रयोगशाळा परिचर	--	--	--	--	--	--	--
३९	दप्तरी	--	--	--	--	--	--	--
	एकुण :-	२२	२२	१३	२२	२२	२२	२२
४०	मुकादम (अतिरिक्त)							

अ. क्र.	पदाचे नांव	सिंचन शाखा क्र.१२, दैठणा (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.१३, दैठणा (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.१४, परभणी (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.१५, पोखर्णी (शाखा कार्यालय)	जा.पा. उपविभाग क्र.९, लोहगांव (उपविभागीय कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.१६, सिंगणा पुर (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.१७, लोहगांव (शाखा कार्यालय)
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	अधीक्षक अभियंता व प्रशासक	--	--	--	--	--	--	--
२	कार्यकारी अभियंता	--	--	--	--	--	--	--
३	उप कार्यकारी अभियंता	--	--	--	--	--	--	--
४	उप विभागीय अभियंता/ अधिकारी/ (सहाय्यक अधीक्षक अभियंता)/ सहाय्यक अधीक्षक अभियंता श्रेणी-१	--	--	--	--	१	--	--
५	शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता/ सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२	१	१	१	१	१	१	१
६	स्था. अ. सहाय्यक	१	१	१	१	--	१	१
७	विभागीय लेखापाल/लेखाधिकारी	--	--	--	--	--	--	--
८	अधीक्षक	--	--	--	--	--	--	--

अ. क्र.	पदाचे नांव	सिंचन शाखा क्र.१२, दैठणा (शाखा कार्याल य)	सिंचन शाखा क्र.१३, दैठणा (शाखा कार्याल य)	सिंचन शाखा क्र.१४, परभणी (शाखा कार्याल य)	सिंचन शाखा क्र.१५, पोखर्णी (शाखा कार्याल य)	जा.पा. उपविभा ग क्र.९, लोहगां व (उपवि भागीय कार्याल य)	सिंचन शाखा क्र.१६, सिंगणा पूर (शाखा कार्याल य)	सिंचन शाखा क्र.१७, लोहगां व (शाखा कार्याल य)
१	२	३	४	५	६	७	८	९
९	प्रथम लिपीक	--	--	--	--	--	--	--
१०	मुख्य आरेखक	--	--	--	--	--	--	--
११	विभागीय भांडारपाल	--	--	--	--	--	--	--
१२	सहा. आरेखक (आरेखक श्रे-२)	--	--	--	--	--	--	--
१३	उच्चश्रेणी लघुलेखक	--	--	--	--	--	--	--
१४	वरिष्ठ दप्तर कारकुन	--	--	--	--	--	--	--
१५	वरिष्ठ लिपीक	--	--	--	--	१	--	--
१६	अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३)	--	--	--	--	१	--	--
१७	कनिष्ठ लिपीक (कनिष्ठ लिपीक/ टंकलेखक-मंडळ कारकून)	--	--	--	--	२	--	--
१८	टंकलेखक	--	--	--	--	१	--	--
१९	लेखाधिकारी	--	--	--	--	--	--	--
२०	प्रमुख दप्तर कारकुन	--	--	--	--	--	--	--
२१	दप्तर कारकुन	२	२	२	२	२	२	२
२२	आरेखक (आरेखक श्रेणी-१)	--	--	--	--	--	--	--
२३	लघुटंक./निम्नश्रे	--	--	--	--	--	--	--

अ. क्र.	पदाचे नांव	सिंचन शाखा क्र.१२, दैठणा (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.१३, दैठणा (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.१४, परभणी (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.१५, पोखर्णी (शाखा कार्यालय)	जा.पा. उपविभाग क्र.९, लोहगांव (उपविभागीय कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.१६, सिंगणा पुर (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.१७, लोहगांव (शाखा कार्यालय)
१	२	३	४	५	६	७	८	९
	णी लघुलेखक							
२४	संगणक कार्यक्रम चालक	--	--	--	--	--	--	--
२५	संगणक	--	--	--	--	--	--	--
२६	सहा. भांडारपाल/भांडार लिपीक	--	--	--	--	--	--	--
२७	कालवा निरीक्षक	८	८	८	८	--	८	८
२८	मोजणीदार	४	४	४	४	--	४	४
२९	प्रयोगशाळा सहाय्यक	--	--	--	--	--	--	--
३०	वाहन चालक	--	--	--	--	१	--	--
३१	संदेशक	१	१	१	१	--	१	१
३२	अमीन	--	--	--	--	--	--	--
३३	नाईक	--	--	--	--	--	--	--
३४	शिपाई	१	१	१	१	२	१	१
३५	चौकीदार	--	--	--	--	१	--	--
३६	कालवा टपाली	१	१	१	१	--	१	१
३७	कालवा चौकीदार	३	३	३	३	--	३	३
३८	प्रयोगशाळा परिचर	--	--	--	--	--	--	--
३९	दप्तरी	--	--	--	--	--	--	--
	एकुण :-	२२	२२	२२	२२	१३	२२	२२
४०	मुकादम (अतिरिक्त)							

अ. क्र.	पदाचे नाव	सिंचन शाखा क्र.१८, पाथरा (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.१९, ताडक ळस-१ (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.२०, ताडक ळस-२ (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.२१, पिंगळी (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.२२, एकरुखा (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.२३, देशमुख पिंप्री (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.२४, पिंगळी (शाखा कार्यालय)
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	अधीक्षक अभियंता व प्रशासक	--	--	--	--	--	--	--
२	कार्यकारी अभियंता	--	--	--	--	--	--	--
३	उप कार्यकारी अभियंता	--	--	--	--	--	--	--
४	उप विभागीय अभियंता/ अधिकारी/ (सहाय्यक अधीक्षक अभियंता)/ सहाय्यक अधीक्षक अभियंता श्रेणी-१	--	--	--	--	--	--	--
५	शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता/ सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२	१	१	१	१	१	१	१
६	स्था. अ. सहाय्यक	१	१	१	१	१	१	१
७	विभागीय	--	--	--	--	--	--	--

अ. क्र.	पदाचे नाव	सिंचन शाखा क्र.१८, पाथरा (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.१९, ताडक ळस-१ (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.२०, ताडक ळस-२ (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.२१, पिंगळी (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.२२, एकरुखा (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.२३, देशमुख पिंप्री (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.२४, पिंगळी (शाखा कार्यालय)
१	२	३	४	५	६	७	८	९
	लेखापाल/लेखाधिकारी							
८	अधिक्षक	--	--	--	--	--	--	--
९	प्रथम लिपीक	--	--	--	--	--	--	--
१०	मुख्य आरेखक	--	--	--	--	--	--	--
११	विभागीय भांडारपाल	--	--	--	--	--	--	--
१२	सहा. आरेखक (आरेखक श्रे-२)	--	--	--	--	--	--	--
१३	उच्चश्रेणी लघुलेखक	--	--	--	--	--	--	--
१४	वरिष्ठ दप्तर कारकून	--	--	--	--	--	--	--
१५	वरिष्ठ लिपीक	--	--	--	--	--	--	--
१६	अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३)	--	--	--	--	--	--	--
१७	कनिष्ठ लिपीक (कनिष्ठ लिपीक/टंकलेखक-मंडळ कारकून)	--	--	--	--	--	--	--
१८	टंकलेखक	--	--	--	--	--	--	--
१९	लेखाधिकारी	--	--	--	--	--	--	--
२०	प्रमुख दप्तर	--	--	--	--	--	--	--

अ. क्र.	पदाचे नाव	सिंचन शाखा क्र.१८, पाथरा (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.१९, ताडक ळस-१ (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.२०, ताडक ळस-२ (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.२१, पिंगळी (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.२२, एकरुखा (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.२३, देशमुख पिंप्री (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.२४, पिंगळी (शाखा कार्यालय)
१	२	३	४	५	६	७	८	९
	कारकुन							
२१	दप्तर कारकुन	२	२	२	२	२	२	२
२२	आरेखक (आरेखक श्रेणी-१)	--	--	--	--	--	--	--
२३	लघुटंक./निम्नश्रेणी लघुलेखक	--	--	--	--	--	--	--
२४	संगणक कार्यक्रम चालक	--	--	--	--	--	--	--
२५	संगणक	--	--	--	--	--	--	--
२६	सहा. भांडारपाल/भांडार लिपीक	--	--	--	--	--	--	--
२७	कालवा निरीक्षक	८	८	८	८	८	८	८
२८	मोजणीदार	४	४	४	४	४	४	४
२९	प्रयोगशाळा सहाय्यक	--	--	--	--	--	--	--
३०	वाहन चालक	--	--	--	--	--	--	--
३१	संदेशक	१	१	१	१	१	१	१
३२	अमीन	--	--	--	--	--	--	--
३३	नाईक	--	--	--	--	--	--	--
३४	शिपाई	१	१	१	१	१	१	१
३५	चौकीदार	--	--	--	--	--	--	--
३६	कालवा टपाली	१	१	१	१	१	१	१

अ. क्र.	पदाचे नाव	सिंचन शाखा क्र.१८, पाथरा (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.१९, ताडक लस-१ (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.२०, ताडक लस-२ (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.२१, पिंगळी (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.२२, एकरुखा (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.२३, देशमुख पिंप्री (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.२४, पिंगळी (शाखा कार्यालय)
१	२	३	४	५	६	७	८	९
३७	कालवा चौकीदार	३	३	३	३	३	३	३
३८	प्रयोगशाळा परिचर	--	--	--	--	--	--	--
३९	दफ्तरी	--	--	--	--	--	--	--
	एकुण :-	२२	२२	२२	२२	२२	२२	२२
४०	मुकादम (अतीरिक्त)							

अ. क्र.	पदाचे नांव	सिंचन शाखा क्र.२५, परभणी (शाखा कार्यालय)	जा.पा.उप विभाग क्र.१०, परभणी (उपविभागीय कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.२६, मंगरुळ (शाखा कार्यालय)	पाटबंधा रे व्यवस्था पन उपविभाग क्र.१, परभणी (उपविभागीय कार्यालय)	जलसिंचन शाखा, परभणी (शाखा कार्यालय)	जलसिंचन शाखा, मासोळी शाखा क्र.१, गंगाखेड (शाखा कार्यालय)	जलसिंचन शाखा क्र.२, गंगाखेड (शाखा कार्यालय)
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	अधीक्षक अभियंता व प्रशासक	--	--	--	--	--	--	--

अ. क्र.	पदाचे नांव	सिंचन शाखा क्र.२५, परभणी (शाखा कार्यालय)	जा.पा.उप विभाग क्र.१०, परभणी (उपविभागीय कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.२६, मंगरुळ (शाखा कार्यालय)	पाटबंधारे व्यवस्थापन उपविभाग क्र.१, परभणी (उपविभागीय कार्यालय)	जलसिंचन शाखा, परभणी (शाखा कार्यालय)	जलसिंचन शाखा, मासोळी शाखा क्र.१, गंगाखेड (शाखा कार्यालय)	जलसिंचन शाखा क्र.२, गंगाखेड (शाखा कार्यालय)
१	२	३	४	५	६	७	८	९
२	कार्यकारी अभियंता	--	--	--	--	--	--	--
३	उप कार्यकारी अभियंता	--	--	--	--	--	--	--
४	उप विभागीय अभियंता/ अधिकारी/ (सहाय्यक अधीक्षक अभियंता)/ सहाय्यक अधीक्षक अभियंता श्रेणी-१	--	१	--	१	--	--	--
५	शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता/ सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२	१	१	१	१	१	१	१
६	स्था. अ. सहाय्यक	१	--	१	--	१	१	१
७	विभागीय लेखापाल/लेखाधिकारी	--	--	--	--	--	--	--
८	अधीक्षक	--	--	--	--	--	--	--
९	प्रथम लिपीक	--	--	--	--	--	--	--
१०	मुख्य आरेखक	--	--	--	--	--	--	--
११	विभागीय	--	--	--	--	--	--	--

अ. क्र.	पदाचे नांव	सिंचन शाखा क्र.२५, परभणी (शाखा कार्यालय)	जा.पा.उप विभाग क्र.१०, परभणी (उपविभागीय कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.२६, मंगरुळ (शाखा कार्यालय)	पाटबंधा रे व्यवस्था पन उपविभाग क्र.१, परभणी (उपविभागीय कार्यालय)	जलसिंचन शाखा, परभणी (शाखा कार्यालय)	जलसिंचन शाखा, मासोळी शाखा क्र.१, गंगाखेड (शाखा कार्यालय)	जलसिंचन शाखा क्र.२, गंगाखेड (शाखा कार्यालय)
१	२	३	४	५	६	७	८	९
	भांडारपाल							
१२	सहा. आरेखक (आरेखक श्रे-२)	--	--	--	--	--	--	--
१३	उच्चश्रेणी लघुलेखक	--	--	--	--	--	--	--
१४	वरिष्ठ दप्तर कारकुन	--	--	--	--	--	--	--
१५	वरिष्ठ लिपीक	--	१	--	१	--	--	--
१६	अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३)	--	१	--	१	--	--	--
१७	कनिष्ठ लिपीक (कनिष्ठ लिपीक/ टंकलेखक-मंडळ कारकून)	--	२	--	२	--	--	--
१८	टंकलेखक	--	१	--	१	--	--	--
१९	लेखाधिकारी	--	--	--	--	--	--	--
२०	प्रमुख दप्तर कारकुन	--	--	--	--	--	--	--
२१	दप्तर कारकुन	२	२	२	२	२	२	२
२२	आरेखक (आरेखक श्रेणी-१)	--	--	--	--	--	--	--
२३	लघुटंक./निम्नश्रेणी लघुलेखक	--	--	--	--	--	--	--

अ. क्र.	पदाचे नांव	सिंचन शाखा क्र.२५, परभणी (शाखा कार्यालय)	जा.पा.उप विभाग क्र.१०, परभणी (उपविभागीय कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.२६, मंगरुळ (शाखा कार्यालय)	पाटबंधा रे व्यवस्थापन उपविभाग क्र.१, परभणी (उपविभागीय कार्यालय)	जलसिंचन शाखा, परभणी (शाखा कार्यालय)	जलसिंचन शाखा, मासोळी शाखा क्र.१, गंगाखेड (शाखा कार्यालय)	जलसिंचन शाखा क्र.२, गंगाखेड (शाखा कार्यालय)
१	२	३	४	५	६	७	८	९
२४	संगणक कार्यक्रम चालक	--	--	--	--	--	--	--
२५	संगणक	--	--	--	--	--	--	--
२६	सहा. भांडारपाल/ भांडार लिपीक	--	--	--	--	--	--	--
२७	कालवा निरीक्षक	८	--	८	--	८	८	८
२८	मोजणीदार	४	--	४	--	४	४	४
२९	प्रयोगशाळा सहाय्यक	--	--	--	--	--	--	--
३०	वाहन चालक	--	१	--	१	--	--	--
३१	संदेशक	१	--	१	--	१	१	१
३२	अमीन	--	--	--	--	--	--	--
३३	नाईक	--	--	--	--	--	--	--
३४	शिपाई	१	२	१	२	१	१	१
३५	चौकीदार	--	१	--	१	--	--	--
३६	कालवा टपाली	१	--	१	--	१	१	१
३७	कालवा चौकीदार	३	--	३	--	३	३	३
३८	प्रयोगशाळा परिचर	--	--	--	--	--	--	--
३९	दफ्तरी	--	--	--	--	--	--	--
	एकुण :-	२२	१३	२२	१३	२२	२२	२२
४०	मुकादम (अतीरिक्त)							

अ.क्र.	पदाचे नांव	पाटबंधारे व्यवस्थापन उपविभाग क्र.२, जितूर (उपविभागीय कार्यालय)	जलसिंचन शाखा क्र.१, जितूर (शाखा कार्यालय)	जलसिंचन शाखा क्र.२, जितूर (शाखा कार्यालय)	जलसिंचन शाखा, बोरी	जलसिंचन शाखा, यलदरी	एकुण पदे एकुण जायकवाडी पाटबंधारे विभाग क्र.२, परभणी
१	२	३	४	५	६	७	८
१	अधीक्षक अभियंता व प्रशासक	--	--	--	--	--	--
२	कार्यकारी अभियंता	--	--	--	--	--	१
३	उप कार्यकारी अभियंता	--	--	--	--	--	१
४	उप विभागीय अभियंता/ अधिकारी/ (सहाय्यक अधीक्षक अभियंता)/ सहाय्यक अधीक्षक अभियंता श्रेणी-१	१	--	--	--	--	६
५	शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता/ सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२	१	१	१	१	१	४३
६	स्था. अ. सहाय्यक	--	१	१	१	१	३३
७	विभागीय लेखापाल/लेखाधिकारी	--	--	--	--	--	१
८	अधीक्षक	--	--	--	--	--	--
९	प्रथम लिपीक	--	--	--	--	--	१
१०	मुख्य आरेखक	--	--	--	--	--	--
११	विभागीय भांडारपाल	--	--	--	--	--	१
१२	सहा. आरेखक (आरेखक श्रे-२)	--	--	--	--	--	१
१३	उच्चश्रेणी लघुलेखक	--	--	--	--	--	--
१४	वरिष्ठ दप्तर कारकुन	--	--	--	--	--	१
१५	वरिष्ठ लिपीक	१	--	--	--	--	११
१६	अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३)	१	--	--	--	--	६

अ.क्र.	पदाचे नांव	पाटबंधारे व्यवस्थापन उपविभाग क्र.२, जितूर (उपविभागीय कार्यालय)	जलसिंचन शाखा क्र.१, जितूर (शाखा कार्यालय)	जलसिंचन शाखा क्र.२, जितूर (शाखा कार्यालय)	जलसिंचन शाखा, बोरी	जलसिंचन शाखा, यलदरी	एकुण पदे एकुण जायकवाडी पाटबंधारे विभाग क्र.२, परभणी
१	२	३	४	५	६	७	८
१७	कनिष्ठ लिपीक (कनिष्ठ लिपीक/ टंकलेखक-मंडळ कारकून)	२	--	--	--	--	१६
१८	टंकलेखक	१	--	--	--	--	९
१९	लेखाधिकारी	--	--	--	--	--	--
२०	प्रमुख दप्तर कारकून	--	--	--	--	--	--
२१	दप्तर कारकून	२	२	२	२	२	८१
२२	आरेखक (आरेखक श्रेणी-१)	--	--	--	--	--	१
२३	लघुटंक./निम्नश्रेणी लघुलेखक	--	--	--	--	--	--
२४	संगणक कार्यक्रम चालक	--	--	--	--	--	--
२५	संगणक	--	--	--	--	--	--
२६	सहा. भांडारपाल/ भांडार लिपीक	--	--	--	--	--	१
२७	कालवा निरीक्षक	--	८	८	८	८	२६४
२८	मोजणीदार	--	४	४	४	४	१३२
२९	प्रयोगशाळा सहाय्यक	--	--	--	--	--	--
३०	वाहन चालक	१	--	--	--	--	७
३१	संदेशक	--	१	१	१	१	३३
३२	अमीन	--	--	--	--	--	--
३३	नाईक	--	--	--	--	--	१
३४	शिपाई	२	१	१	१	१	५०
३५	चौकीदार	१	--	--	--	--	७
३६	कालवा टपाली	--	१	१	१	१	३३

अ.क्र.	पदाचे नांव	पाटबंधारे व्यवस्थापन उपविभाग क्र.२, जितूर (उपविभागीय कार्यालय)	जलसिंचन शाखा क्र.१, जितूर (शाखा कार्यालय)	जलसिंचन शाखा क्र.२, जितूर (शाखा कार्यालय)	जलसिंचन शाखा, बोरी	जलसिंचन शाखा, यलदरी	एकुण पदे एकुण जायकवाडी पाटबंधारे विभाग क्र.२, परभणी
१	२	३	४	५	६	७	८
३७	कालवा चौकीदार	--	३	३	३	३	९९
३८	प्रयोगशाळा परिचर	--	--	--	--	--	--
३९	दप्तरी	--	--	--	--	--	--
	एकुण :-	१३	२२	२२	२२	२२	८४०
४०	मुकादम (अतिरिक्त)						

(प्रज्ञा मेश्राम)
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन,

शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२५/प्र.क्र.६५/२५/लाक्षेवि (आस्था), दि.०७/०८/२०२५ चे सहपत्र..

विवरणपत्र - ०५

अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, छत्रपती संभाजीनगर या कार्यालयातर्गत
नांदूर मधमेश्वर पाटबंधारे विभाग, वैजापूर या कार्यालयातील
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि.०१/०३/२०२५ ते दि.३१/०८/२०२५ पर्यंत मुदतवाढ

अ. क्र.	पदाचे नाव	विभागीय कार्याल य नांदूर मधमेश्वर पाटबंधा रे विभाग, वैजापूर	नां.म.पा टबंधारे उपविभा ग क्र.१, मु.वैजापू र (उपविभा गीय कार्याल य)	सिंचन शाखा क्र.१, येवला (नविन) (शाखा कार्याल य)	सिंचन शाखा क्र.२, खंबाळा शिवारा तील शास. इमारत, ता.वैजा पूर (नविन) (शाखा कार्याल य)	सिंचन शाखा क्र.३, सीआर -९२ वरील शास. इमारत , ता.वै जापूर (नविन) (शाखा कार्या लय)	सिंचन शाखा क्र.४, सीआ र-९२ वरील शास. इमार त, ता.वै जापूर (नविन) (शाखा कार्या लय)	नां.म.पाटबं धारे उपविभाग क्र.२, मु.वैजापूर (उपविभागी य कार्यालय)
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	अधीक्षक अभियंता व प्रशासक	--	--	--	--	--	--	--
२	कार्यकारी अभियंता	१	--	--	--	--	--	--
३	उप कार्यकारी अभियंता	१	--	--	--	--	--	--

४	उप विभागीय अभियंता/ अधिकारी/ (सहाय्यक अधीक्षक अभियंता)/ सहाय्यक अधीक्षक अभियंता श्रेणी-१	--	१	--	--	--	--	१
५	शाखा अभियंता/कनि ष्ठ अभियंता/ सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२	४	४	--	--	--	--	४
६	स्था. अ. सहाय्यक	--	४	--	--	--	--	४
७	विभागीय लेखापाल/लेखा धिकारी	१	--	--	--	--	--	--
८	अधीक्षक	--	--	--	--	--	--	--
९	प्रथम लिपीक	१	--	--	--	--	--	--
१०	मुख्य आरेखक	--	--	--	--	--	--	--
११	विभागीय भांडारपाल	१	--	--	--	--	--	--
१२	सहा. आरेखक (आरेखक श्रे-२)	१	--	--	--	--	--	--
१३	उच्चश्रेणी लघुलेखक	--	--	--	--	--	--	--
१४	वरिष्ठ दप्तर कारकुन	--	--	--	--	--	--	--
१५	वरिष्ठ लिपीक	५	१	--	--	--	--	१
१६	अनुरेखक (आरेखक श्रेणी- ३)	१	१	--	--	--	--	१

१७	कनिष्ठ लिपीक (कनिष्ठ लिपीक/ टंकलेखक- मंडळ कारकून)	४	२	--	--	--	--	२
१८	टंकलेखक	३	१	--	--	--	--	१
१९	लेखाधिकारी	--	--	--	--	--	--	--
२०	प्रमुख दप्तर कारकून	--	--	--	--	--	--	--
२१	दप्तर कारकून	--	--	--	--	--	--	--
२२	आरेखक (आरेखक श्रेणी- १)	--	--	--	--	--	--	--
२३	लघुटंक./निम्न श्रेणी लघुलेखक	१	--	--	--	--	--	--
२४	संगणक कार्यक्रम चालक	--	--	--	--	--	--	--
२५	संगणक	१	--	--	--	--	--	--
२६	सहा. भांडारपाल/ भांडार लिपीक	१	--	--	--	--	--	--
२७	कालवा निरीक्षक	--	--	--	--	--	--	--
२८	मोजणीदार	--	--	--	--	--	--	--
२९	प्रयोगशाळा सहाय्यक	--	--	--	--	--	--	--
३०	वाहन चालक	१	१	--	--	--	--	१
३१	संदेशक	--	--	--	--	--	--	--
३२	अमीन	--	--	--	--	--	--	--
३३	नाईक	१	--	--	--	--	--	--
३४	शिपाई	५	२	--	--	--	--	२
३५	चौकीदार	१	१	--	--	--	--	१
३६	कालवा टपाली	--	--	--	--	--	--	--
३७	कालवा चौकीदार	--	--	--	--	--	--	--
३८	प्रयोगशाळा	--	--	--	--	--	--	--

	परिचर							
३९	दप्तरी	--	--	--	--	--	--	--
	एकुण :-	३४	१८	--	--	--	--	१८
४०	मुकादम (अतिरिक्त)							

अ. क्र.	पदाचे नांव	सिंचन शाखा क्र.५, सीआर- ११० वरील शास. इमारत, ता.वैजा पूर (नविन) (शाखा कार्याल य)	सिंचन शाखा क्र.६, सीआर- ११० वरील शास. इमारत, ता.वैजा पूर (नविन) (शाखा कार्याल य)	सिंचन शाखा क्र.७, वैजापू र (नविन) (शा खा कार्या लय)	सिंचन शाखा क्र.८, वैजापूर (आस्तित्वा तील)(शा खा कार्यालय)	नां.म.पा टबंधारे उपविभा ग क्र.३, गंगापूर (उपविभा गीय कार्याल य)	सिंचन शाखा क्र.९, ब्रँच हेडवरी ल शास. इमारत, (नविन) (शाखा कार्याल य)	सिंचन शाखा क्र.१०, गंगापूर ब्रँच हेडवरील शास. इमारत, (नविन) (शाखा कार्यालय)
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	अधीक्षक अभियंता व प्रशासक	--	--	--	--	--	--	--
२	कार्यकारी अभियंता	--	--	--	--	--	--	--
३	उप कार्यकारी अभियंता	--	--	--	--	--	--	--
४	उप विभागीय अभियंता/ अधिकारी/ (सहाय्यक अधीक्षक अभियंता)/ सहाय्यक अधीक्षक अभियंता	--	--	--	--	१	--	--

	श्रेणी-१							
५	शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता/ सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२	--	--	--	१	४	--	--
६	स्था. अ. सहाय्यक	--	--	--	१	४	--	--
७	विभागीय लेखापाल/लेखा धिकारी	--	--	--	--	--	--	--
८	अधिक्षक	--	--	--	--	--	--	--
९	प्रथम लिपीक	--	--	--	--	--	--	--
१०	मुख्य आरेखक	--	--	--	--	--	--	--
११	विभागीय भांडारपाल	--	--	--	--	--	--	--
१२	सहा. आरेखक (आरेखक श्रे-२)	--	--	--	--	--	--	--
१३	उच्चश्रेणी लघुलेखक	--	--	--	--	--	--	--
१४	वरिष्ठ दप्तर कारकुन	--	--	--	--	--	--	--
१५	वरिष्ठ लिपीक	--	--	--	--	१	--	--
१६	अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३)	--	--	--	--	१	--	--
१७	कनिष्ठ लिपीक (कनिष्ठ लिपीक/ टंकलेखक-मंडळ कारकून)	--	--	--	--	२	--	--
१८	टंकलेखक	--	--	--	--	१	--	--
१९	लेखाधिकारी	--	--	--	--	--	--	--
२०	प्रमुख दप्तर कारकुन	--	--	--	--	--	--	--
२१	दप्तर कारकुन	--	--	--	२	--	--	--

२२	आरेखक (आरेखक श्रेणी-१)	--	--	--	--	--	--	--
२३	लघुटंक./निम्नश्रेणी लघुलेखक	--	--	--	--	--	--	--
२४	संगणक कार्यक्रम चालक	--	--	--	--	--	--	--
२५	संगणक	--	--	--	--	--	--	--
२६	सहा. भांडारपाल/भांडार लिपीक	--	--	--	--	--	--	--
२७	कालवा निरीक्षक	--	--	--	८	--	--	--
२८	मोजणीदार	--	--	--	४	--	--	--
२९	प्रयोगशाळा सहाय्यक	--	--	--	--	--	--	--
३०	वाहन चालक	--	--	--	--	१	--	--
३१	संदेशक	--	--	--	१	--	--	--
३२	अमीन	--	--	--	--	--	--	--
३३	नाईक	--	--	--	--	--	--	--
३४	शिपाई	--	--	--	१	२	--	--
३५	चौकीदार	--	--	--	--	१	--	--
३६	कालवा टपाली	--	--	--	१	--	--	--
३७	कालवा चौकीदार	--	--	--	३	--	--	--
३८	प्रयोगशाळा परिचर	--	--	--	--	--	--	--
३९	दप्तरी	--	--	--	--	--	--	--
	एकुण :-	--	--	--	२२	१८	--	--
४०	मुकादम (अतिरिक्त)							

अ. क्र.	पदाचे नाव	सिंचन शाखा क्र.११, गंगापूर (नविन) (शाखा	सिंचन शाखा क्र.१२, गंगापूर (नविन) (शाखा	नां.म.पाट बंधारे उपविभाग क्र.४, गंगापूर (उपविभा	सिंचन शाखा क्र.१३, गंगापूर (नविन) (शाखा	सिंचन शाखा क्र.१४, गंगापूर (नविन) (शाखा	सिंचन शाखा क्र.१५, गंगापूर (आस्ति त्वाती	नां.म. कालवा उपविभाग क्र.३, वैजापूर (उपवि
---------	-----------	---	---	---	---	---	--	---

		कार्याल य)	कार्यालय)	गीय कार्यालय)	कार्याल य)	कार्याल य)	ल) (शाखा कार्या लय)	भागीय कार्याल य)
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	अधीक्षक अभियंता व प्रशासक	--	--	--	--	--	--	--
२	कार्यकारी अभियंता	--	--	--	--	--	--	--
३	उप कार्यकारी अभियंता	--	--	--	--	--	--	--
४	उप विभागीय अभियंता/ अधिकारी/ (सहाय्यक अधीक्षक अभियंता)/ सहाय्यक अधीक्षक अभियंता श्रेणी- १	--	--	१	--	--	--	१
५	शाखा अभियंता/कनि ष्ठ अभियंता/ सहाय्यक अभियंता श्रेणी- २	--	--	४	--	--	१	४
६	स्था. अ. सहाय्यक	--	--	४	--	--	१	४
७	विभागीय लेखापाल/ले खाधिकारी	--	--	--	--	--	--	--
८	अधीक्षक	--	--	--	--	--	--	--
९	प्रथम लिपीक	--	--	--	--	--	--	--
१०	मुख्य आरेखक	--	--	--	--	--	--	--

११	विभागीय भांडारपाल	--	--	--	--	--	--	--
१२	सहा. आरेखक (आरेखक श्रे-२)	--	--	--	--	--	--	--
१३	उच्चश्रेणी लघुलेखक	--	--	--	--	--	--	--
१४	वरिष्ठ दप्तर कारकुन	--	--	--	--	--	--	--
१५	वरिष्ठ लिपीक	--	--	१	--	--	--	१
१६	अनुरेखक (आरेखक श्रेणी- ३)	--	--	१	--	--	--	१
१७	कनिष्ठ लिपीक (कनिष्ठ लिपीक/ टंकलेखक- मंडळ कारकून)	--	--	२	--	--	--	२
१८	टंकलेखक	--	--	१	--	--	--	१
१९	लेखाधिकारी	--	--	--	--	--	--	--
२०	प्रमुख दप्तर कारकुन	--	--	--	--	--	--	--
२१	दप्तर कारकुन	--	--	--	--	--	२	--
२२	आरेखक (आरेखक श्रेणी- १)	--	--	--	--	--	--	--
२३	लघुटंक./ निम्नश्रेणी लघुलेखक	--	--	--	--	--	--	--
२४	संगणक कार्यक्रम चालक	--	--	--	--	--	--	--
२५	संगणक	--	--	--	--	--	--	--
२६	सहा. भांडारपाल/ भांडार लिपीक	--	--	--	--	--	--	--

२७	कालवा निरीक्षक	--	--	--	--	--	८	--
२८	मोजणीदार	--	--	--	--	--	४	--
२९	प्रयोगशाळा सहाय्यक	--	--	--	--	--	--	--
३०	वाहन चालक	--	--	१	--	--	--	१
३१	संदेशक	--	--	--	--	--	१	--
३२	अमीन	--	--	--	--	--	--	--
३३	नाईक	--	--	--	--	--	--	--
३४	शिपाई	--	--	२	--	--	१	२
३५	चौकीदार	--	--	१	--	--	--	१
३६	कालवा टपाली	--	--	--	--	--	१	--
३७	कालवा चौकीदार	--	--	--	--	--	३	--
३८	प्रयोगशाळा परिचर	--	--	--	--	--	--	--
३९	दप्तरी	--	--	--	--	--	--	--
	एकुण :-	--	--	१८	--	--	२२	१८
४०	मुकादम (अतिरिक्त)							

अ. क्र.	पदाचे नांव	नां.म.काल वा उपविभाग क्र.१०, वैजापूर (उपविभागीय कार्यालय)	नां.म.काल वा उपविभाग क्र.८, गंगापूर (उपविभागीय कार्यालय)	नां.म.काल वा उपविभाग क्र.६, निलंगा मु.वैजापूर (उपविभागीय कार्यालय)	एकुण पदे एकुण नांदूर मधमेश्वर पाटबंधारे विभाग, वैजापूर
१	२	३	४	५	६
१	अधीक्षक अभियंता व प्रशासक	--	--	--	--
२	कार्यकारी अभियंता	--	--	--	१
३	उप कार्यकारी अभियंता	--	--	--	१

४	उप विभागीय अभियंता/ अधिकारी/ (सहाय्यक अधीक्षक अभियंता)/ सहाय्यक अधीक्षक अभियंता श्रेणी-१	१	१	१	८
५	शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता/ सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२	४	४	४	३८
६	स्था. अ. सहाय्यक	४	४	४	३४
७	विभागीय लेखापाल/लेखाधिकारी	--	--	--	१
८	अधीक्षक	--	--	--	--
९	प्रथम लिपीक	--	--	--	१
१०	मुख्य आरेखक	--	--	--	--
११	विभागीय भांडारपाल	--	--	--	१
१२	सहा. आरेखक (आरेखक श्रे-२)	--	--	--	१
१३	उच्चश्रेणी लघुलेखक	--	--	--	--
१४	वरिष्ठ दप्तर कारकुन	--	--	--	--
१५	वरिष्ठ लिपीक	१	१	१	१३
१६	अनुरेखक (आरेखक श्रेणी- ३)	१	१	१	९
१७	कनिष्ठ लिपीक (कनिष्ठ लिपीक/ टंकलेखक- मंडळ कारकून)	२	२	२	२०
१८	टंकलेखक	१	१	१	११
१९	लेखाधिकारी	--	--	--	--
२०	प्रमुख दप्तर कारकुन	--	--	--	--
२१	दप्तर कारकुन	--	--	--	४
२२	आरेखक (आरेखक श्रेणी- १)	--	--	--	--
२३	लघुटंक./निम्नश्रेणी लघुलेखक	--	--	--	१
२४	संगणक कार्यक्रम चालक	--	--	--	--
२५	संगणक	--	--	--	१

२६	सहा. भांडारपाल/ भांडार लिपीक	--	--	--	१
२७	कालवा निरीक्षक	--	--	--	१६
२८	मोजणीदार	--	--	--	८
२९	प्रयोगशाळा सहाय्यक	--	--	--	--
३०	वाहन चालक	१	१	१	९
३१	संदेशक	--	--	--	२
३२	अमीन	--	--	--	--
३३	नाईक	--	--	--	१
३४	शिपाई	२	२	२	२३
३५	चौकीदार	१	१	१	९
३६	कालवा टपाली	--	--	--	२
३७	कालवा चौकीदार	--	--	--	६
३८	प्रयोगशाळा परिचर	--	--	--	--
३९	दफ्तरी	--	--	--	--
	एकुण :-	१८	१८	१८	२२२
४०	मुकादम (अतिरिक्त)				००
					२२२

(प्रज्ञा मेश्राम)
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन,

शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२५/प्र.क्र.६५/२५/लाक्षेवि (आस्था), दि. ०७/०४/२०२५ चे सहपत्र..

विवरणपत्र - ०६

अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, छत्रपती संभाजीनगर या कार्यालयातर्गत
जालना पाटबंधारेविभाग, जालना या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना
दि.०१/०३/२०२५ ते दि.३१/०८/२०२५ पर्यंत मुदतवाढ

अ.क्र.	पदाचे नाव	विभागीय कार्यालय जालना पाटबंधारे विभाग, जालना	जालना पा.उपविभाग क्र.३, टेंभुर्णी, ता.जाफ्राबाद (उपविभागीय कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.९, टेंभुर्णी (अस्ति.) (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.१०, सिपोरा बाजार (अस्ति.) (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.११, सेलुद (अस्ति.) (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.१२, राजुर (नविन) (शाखा कार्यालय)	जालना पा.उपविभाग क्र.४, वाटूर, ता.परतुर (उपविभागीय कार्यालय)
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	अधीक्षक अभियंता व प्रशासक	--	--	--	--	--	--	--
२	कार्यकारी अभियंता	१	--	--	--	--	--	--
३	उप कार्यकारी अभियंता	१	--	--	--	--	--	--
४	उप विभागीय अभियंता/ अधिकारी/ (सहाय्यक अधीक्षक अभियंता)/ सहाय्यक अधीक्षक अभियंता श्रेणी-१	--	१	--	--	--	--	१
५	शाखा अभियंता/कनिष्ठ	४	४	१	१	१	--	४

अ.क्र .	पदाचे नाव	विभागीय कार्यालय जालना पाटबंधारे विभाग, जालना	जालना पा.उपविभाग क्र.३, टेंभुर्णी, ता.जाफ्राबा द (उपविभागी य कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.९, टेंभुर्णी (अस्ति.) (शाखा कार्याल य)	सिंचन शाखा क्र.१०, सिपोरा बाजार (अस्ति.) (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.११, सेलुद (अस्ति.) (शाखा कार्याल य)	सिंचन शाखा क्र.१२, राजुर (नविन) (शाखा कार्यालय)	जालना पा.उपवि भाग क्र.४, वाटूर, ता.परतुर (उपविभा गीय कार्यालय)
१	२	३	४	५	६	७	८	९
	अभियंता/ सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२							
६	स्था. अ. सहाय्यक	--	४	१	१	१	--	४
७	विभागीय लेखापाल/लेखाधि कारी	१	--	--	--	--	--	--
८	अधिक्षक	--	--	--	--	--	--	--
९	प्रथम लिपीक	१	--	--	--	--	--	--
१०	मुख्य आरेखक	--	--	--	--	--	--	--
११	विभागीय भांडारपाल	१	--	--	--	--	--	--
१२	सहा. आरेखक(आरेखक श्रे-२)	१	--	--	--	--	--	--
१३	उच्चश्रेणी लघुलेखक	--	--	--	--	--	--	--
१४	वरिष्ठ दप्तर कारकुन	--	--	--	--	--	--	--
१५	वरिष्ठ लिपीक	५	१	--	--	--	--	१
१६	अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३)	--	१	--	--	--	--	१
१७	कनिष्ठ लिपीक (कनिष्ठ लिपीक/ टंकलेखक-मंडळ	४	२	--	--	--	--	२

अ.क्र.	पदाचे नाव	विभागीय कार्यालय जालना पाटबंधारे विभाग, जालना	जालना पा.उपविभाग क्र.३, टेंभुर्णी, ता.जाफ्राबाद (उपविभागीय कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.९, टेंभुर्णी (अस्ति.) (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.१०, सिपोरा बाजार (अस्ति.) (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.११, सेलुद (अस्ति.) (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.१२, राजुर (नविन) (शाखा कार्यालय)	जालना पा.उपविभाग क्र.४, वाटूर, ता.परतुर (उपविभागीय कार्यालय)
१	२	३	४	५	६	७	८	९
	कारकून)							
१८	टंकलेखक	३	१	--	--	--	--	१
१९	लेखाधिकारी	--	--	--	--	--	--	--
२०	प्रमुख दप्तर कारकुन	--	--	--	--	--	--	--
२१	दप्तर कारकुन	--	--	२	२	२	--	--
२२	आरेखक (आरेखक श्रेणी-१)	१	--	--	--	--	--	--
२३	लघुटंक./निम्नश्रेणी लघुलेखक	१	--	--	--	--	--	--
२४	संगणक कार्यक्रम चालक	--	--	--	--	--	--	--
२५	संगणक	१	--	--	--	--	--	--
२६	सहा. भांडारपाल/ भांडार लिपीक	१	--	--	--	--	--	--
२७	कालवा निरीक्षक	--	--	८	८	८	--	--
२८	मोजणीदार	--	--	४	४	४	--	--
२९	प्रयोगशाळा सहाय्यक	--	--	--	--	--	--	--
३०	वाहन चालक	१	१	--	--	--	--	१
३१	संदेशक	--	--	१	१	१	--	--
३२	अमीन	--	--	--	--	--	--	--
३३	नाईक	१	--	--	--	--	--	--

अ.क्र.	पदाचे नाव	विभागीय कार्यालय जालना पाटबंधारे विभाग, जालना	जालना पा.उपविभाग क्र.३, टेंभुर्णी, ता.जाफ्राबाद (उपविभागीय कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.९, टेंभुर्णी (अस्ति.) (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.१०, सिपोरा बाजार (अस्ति.) (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.११, सेलुद (अस्ति.) (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.१२, राजुर (नविन) (शाखा कार्यालय)	जालना पा.उपविभाग क्र.४, वाटूर, ता.परतुर (उपविभागीय कार्यालय)
१	२	३	४	५	६	७	८	९
३४	शिपाई	५	२	१	१	१	--	२
३५	चौकीदार	१	१	--	--	--	--	१
३६	कालवा टपाली	--	--	१	१	१	--	--
३७	कालवा चौकीदार	--	--	३	३	३	--	--
३८	प्रयोगशाळा परिचर	--	--	--	--	--	--	--
३९	दफ्तरी	--	--	--	--	--	--	--
	एकुण :-	३४	१८	२२	२२	२२	--	१८

अ.क्र.	पदाचे नाव	सिंचन शाखा क्र.१३, वाटूर (अस्ति.) (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.१४, वाटूर (नविन) (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.१५, परतुर (नविन) (शाखा कार्यालय)	निम्न दुधना पा.उप विभाग क्र.१, परभणी (उपविभागीय कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.२०, सेलु (नविन) (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.२१, परभणी (नविन) (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.२२, सातोणा (नविन) (शाखा कार्यालय)
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	अधीक्षक अभियंता व प्रशासक	--	--	--	--	--	--	--
२	कार्यकारी अभियंता	--	--	--	--	--	--	--
३	उप कार्यकारी अभियंता	--	--	--	--	--	--	--

अ. क्र.	पदाचे नाव	सिंचन शाखा क्र.१३, वाटूर (अस्ति.) (शाखा कार्याल य)	सिंचन शाखा क्र.१४, वाटूर (नविन) (शाखा कार्याल य)	सिंचन शाखा क्र.१५, परतुर (नविन) (शाखा कार्याल य)	निम्न दुधना पा.उप विभाग क्र.१, परभणी (उपवि भागीय कार्याल य)	सिंचन शाखा क्र.२०, सेलु (नविन) (शाखा कार्याल य)	सिंचन शाखा क्र.२१, परभणी (नविन) (शाखा कार्याल य)	सिंचन शाखा क्र.२२, सातो णा (नविन) (शाखा कार्या लय)
१	२	३	४	५	६	७	८	९
४	उप विभागीय अभियंता/ अधिकारी/ (सहाय्यक अधीक्षक अभियंता)/ सहाय्यक अधीक्षक अभियंता श्रेणी-१	--	--	--	१	--	--	--
५	शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता/ सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२	१	--	--	४	--	--	--
६	स्था. अ. सहाय्यक	१	--	--	४	--	--	--
७	विभागीय लेखापाल/लेखाधिकारी	--	--	--	--	--	--	--
८	अधीक्षक	--	--	--	--	--	--	--
९	प्रथम लिपीक	--	--	--	--	--	--	--
१०	मुख्य आरेखक	--	--	--	--	--	--	--
११	विभागीय भांडारपाल	--	--	--	--	--	--	--
१२	सहा. आरेखक (आरेखक श्रे-२)	--	--	--	--	--	--	--
१३	उच्चश्रेणी लघुलेखक	--	--	--	--	--	--	--
१४	वरिष्ठ दप्तर कारकुन	--	--	--	--	--	--	--
१५	वरिष्ठ लिपीक	--	--	--	१	--	--	--
१६	अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३)	--	--	--	१	--	--	--
१७	कनिष्ठ लिपीक (कनिष्ठ लिपीक/ टंकलेखक-	--	--	--	२	--	--	--

अ. क्र.	पदाचे नाव	सिंचन शाखा क्र.१३, वाटूर (अस्ति.) (शाखा कार्याल य)	सिंचन शाखा क्र.१४, वाटूर (नविन) (शाखा कार्याल य)	सिंचन शाखा क्र.१५, परतुर (नविन) (शाखा कार्याल य)	निम्न दुधना पा.उप विभाग क्र.१, परभणी (उपवि भागीय कार्याल य)	सिंचन शाखा क्र.२०, सेलु (नविन) (शाखा कार्याल य)	सिंचन शाखा क्र.२१, परभणी (नविन) (शाखा कार्याल य)	सिंचन शाखा क्र.२२, सातो णा (नविन) (शाखा कार्या लय)
१	२	३	४	५	६	७	८	९
	मंडळ कारकून)							
१८	टंकलेखक	--	--	--	१	--	--	--
१९	लेखाधिकारी	--	--	--	--	--	--	--
२०	प्रमुख दप्तर कारकुन	--	--	--	--	--	--	--
२१	दप्तर कारकुन	२	--	--	--	--	--	--
२२	आरेखक (आरेखक श्रेणी-१)	--	--	--	--	--	--	--
२३	लघुटंक./निम्नश्रेणी लघुलेखक	--	--	--	--	--	--	--
२४	संगणक कार्यक्रम चालक	--	--	--	--	--	--	--
२५	संगणक	--	--	--	--	--	--	--
२६	सहा. भांडारपाल/ भांडार लिपीक	--	--	--	--	--	--	--
२७	कालवा निरीक्षक	८	--	--	--	--	--	--
२८	मोजणीदार	४	--	--	--	--	--	--
२९	प्रयोगशाळा सहाय्यक	--	--	--	--	--	--	--
३०	वाहन चालक	--	--	--	१	--	--	--
३१	संदेशक	१	--	--	--	--	--	--
३२	अमीन	--	--	--	--	--	--	--
३३	नाईक	--	--	--	--	--	--	--
३४	शिपाई	१	--	--	२	--	--	--
३५	चौकीदार	--	--	--	१	--	--	--
३६	कालवा टपाली	१	--	--	--	--	--	--

अ. क्र.	पदाचे नाव	सिंचन शाखा क्र.१३, वाटूर (अस्ति.) (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.१४, वाटूर (नविन) (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.१५, परतुर (नविन) (शाखा कार्यालय)	निम्न दुधना पा.उप विभाग क्र.१, परभणी (उपविभागीय कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.२०, सेलु (नविन) (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.२१, परभणी (नविन) (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.२२, सातोणा (नविन) (शाखा कार्यालय)
१	२	३	४	५	६	७	८	९
३७	कालवा चौकीदार	३	--	--	--	--	--	--
३८	प्रयोगशाळा परिचर	--	--	--	--	--	--	--
३९	दप्तरी	--	--	--	--	--	--	--
	एकुण :-	२२	--	--	१८	--	--	--

अ. क्र.	पदाचे नाव	सिंचन शाखा क्र.२३, सातोणा (नविन) (शाखा कार्यालय)	निम्न दुधना पा.उपविभाग क्र.२, सेलु (उपविभागीय कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.१६, सेलु (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.१७, वालुर (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.१८, झरी (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.१९, साडेगाव (शाखा कार्यालय)	जालना पा.उपविभाग क्र.१, जालना (उपविभागीय कार्यालय)
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	अधीक्षक अभियंता व प्रशासक	--	--	--	--	--	--	--
२	कार्यकारी अभियंता	--	--	--	--	--	--	--
३	उप कार्यकारी अभियंता	--	--	--	--	--	--	--
४	उप विभागीय अभियंता/ अधिकारी/	--	१	--	--	--	--	१

अ. क्र.	पदाचे नाव	सिंचन शाखा क्र.२३, सातोणा (नविन) (शाखा कार्यालय)	निम्न दुधना पा.उपविभाग क्र.२, सेलु (उपविभागीय कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.१६, सेलु (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.१७, वालुर (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.१८, झरी (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.१९, साडेगाव (शाखा कार्यालय)	जालना पा.उपविभाग क्र.१, जालना (उपविभागीय कार्यालय)
१	२	३	४	५	६	७	८	९
	(सहाय्यक अधीक्षक अभियंता)/ सहाय्यक अधीक्षक अभियंता श्रेणी-१							
५	शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता/ सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२	--	४	--	--	--	--	१
६	स्था. अ. सहाय्यक	--	४	--	--	--	--	--
७	विभागीय लेखापाल/लेखाधिकारी	--	--	--	--	--	--	--
८	अधीक्षक	--	--	--	--	--	--	--
९	प्रथम लिपीक	--	--	--	--	--	--	--
१०	मुख्य आरेखक	--	--	--	--	--	--	--
११	विभागीय भांडारपाल	--	--	--	--	--	--	--
१२	सहा. आरेखक (आरेखक श्रे-२)	--	--	--	--	--	--	--
१३	उच्चश्रेणी लघुलेखक	--	--	--	--	--	--	--
१४	वरिष्ठ दप्तर कारकुन	--	--	--	--	--	--	--
१५	वरिष्ठ लिपीक	--	१	--	--	--	--	१
१६	अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३)	--	१	--	--	--	--	१

अ. क्र.	पदाचे नाव	सिंचन शाखा क्र.२३, सातोणा (नविन) (शाखा कार्यालय)	निम्न दुधना पा.उपविभाग क्र.२, सेलु (उपविभागीय कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.१६, सेलु (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.१७, वालुर (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.१८, झरी (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.१९, साडेगाव (शाखा कार्यालय)	जालना पा.उपविभाग क्र.१, जालना (उपविभागीय कार्यालय)
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१७	कनिष्ठ लिपीक (कनिष्ठ लिपीक/टंकलेखक-मंडळ कारकून)	--	२	--	--	--	--	२
१८	टंकलेखक	--	१	--	--	--	--	१
१९	लेखाधिकारी	--	--	--	--	--	--	--
२०	प्रमुख दप्तर कारकून	--	--	--	--	--	--	--
२१	दप्तर कारकून	--	--	--	--	--	--	२
२२	आरेखक (आरेखक श्रेणी-१)	--	--	--	--	--	--	--
२३	लघुटंक./निम्नश्रेणी लघुलेखक	--	--	--	--	--	--	--
२४	संगणक कार्यक्रम चालक	--	--	--	--	--	--	--
२५	संगणक	--	--	--	--	--	--	--
२६	सहा. भांडारपाल/भांडार लिपीक	--	--	--	--	--	--	--
२७	कालवा निरीक्षक	--	--	--	--	--	--	--
२८	मोजणीदार	--	--	--	--	--	--	--
२९	प्रयोगशाळा सहाय्यक	--	--	--	--	--	--	--
३०	वाहन चालक	--	१	--	--	--	--	१
३१	संदेशक	--	--	--	--	--	--	--
३२	अमीन	--	--	--	--	--	--	--

अ. क्र.	पदाचे नाव	सिंचन शाखा क्र.२३, सातोणा (नविन) (शाखा कार्यालय)	निम्न दुधना पा.उपविभाग क्र.२, सेलु (उपविभागीय कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.१६, सेलु (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.१७, वालुर (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.१८, झरी (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.१९, साडेगाव (शाखा कार्यालय)	जालना पा.उपविभाग क्र.१, जालना (उपविभागीय कार्यालय)
१	२	३	४	५	६	७	८	९
३३	नाईक	--	--	--	--	--	--	--
३४	शिपाई	--	२	--	--	--	--	२
३५	चौकीदार	--	१	--	--	--	--	१
३६	कालवा टपाली	--	--	--	--	--	--	--
३७	कालवा चौकीदार	--	--	--	--	--	--	--
३८	प्रयोगशाळा परिचर	--	--	--	--	--	--	--
३९	दफ्तरी	--	--	--	--	--	--	--
	एकुण :-	--	१८	--	--	--	--	१३

अ. क्र.	पदाचे नाव	सिंचन शाखा क्र.१, बदनापूर (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.२, बदनापूर (नविन) (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.३, जालना (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.४, नेर (शाखा कार्यालय)	जालना पा.उपविभाग क्र.२, अंबड (उपविभागीय कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.५, अंबड (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.६, अंबड (शाखा कार्यालय)
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	अधीक्षक अभियंता व प्रशासक	--	--	--	--	--	--	--
२	कार्यकारी अभियंता	--	--	--	--	--	--	--
३	उप कार्यकारी अभियंता	--	--	--	--	--	--	--
४	उप विभागीय अभियंता/ अधिकारी/ (सहाय्यक अधीक्षक	--	--	--	--	१	--	--

अ. क्र.	पदाचे नाव	सिंचन शाखा क्र.१, बदनापूर (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.२, बदनापूर (नविन) (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.३, जालना (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.४, नेर (शाखा कार्यालय)	जालना पा.उपविभाग क्र.२, अंबड (उपविभागीय कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.५, अंबड (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.६, अंबड (शाखा कार्यालय)
१	२	३	४	५	६	७	८	९
	अभियंता)/ सहाय्यक अधीक्षक अभियंता श्रेणी-१							
५	शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता/ सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२	१	--	१	१	१	१	--
६	स्था. अ. सहाय्यक	१	--	१	१	--	१	--
७	विभागीय लेखापाल/लेखाधिकारी	--	--	--	--	--	--	--
८	अधीक्षक	--	--	--	--	--	--	--
९	प्रथम लिपीक	--	--	--	--	--	--	--
१०	मुख्य आरेखक	--	--	--	--	--	--	--
११	विभागीय भांडारपाल	--	--	--	--	--	--	--
१२	सहा. आरेखक (आरेखक श्रे-२)	--	--	--	--	--	--	--
१३	उच्चश्रेणी लघुलेखक	--	--	--	--	--	--	--
१४	वरिष्ठ दप्तर कारकुन	--	--	--	--	--	--	--
१५	वरिष्ठ लिपीक	--	--	--	--	१	--	--
१६	अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३)	--	--	--	--	१	--	--
१७	कनिष्ठ लिपीक (कनिष्ठ लिपीक/ टंकलेखक-मंडळ कारकून)	--	--	--	--	२	--	--
१८	टंकलेखक	--	--	--	--	१	--	--

अ. क्र.	पदाचे नाव	सिंचन शाखा क्र.१, बदनापूर (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.२, बदनापूर (नविन) (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.३, जालना (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.४, नेर (शाखा कार्यालय)	जालना पा.उपविभाग क्र.२, अंबड (उपविभागीय कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.५, अंबड (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.६, अंबड (शाखा कार्यालय)
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१९	लेखाधिकारी	--	--	--	--	--	--	--
२०	प्रमुख दप्तर कारकुन	--	--	--	--	--	--	--
२१	दप्तर कारकुन	२	--	२	२	२	२	--
२२	आरेखक (आरेखक श्रेणी-१)	--	--	--	--	--	--	--
२३	लघुटंक./निम्नश्रेणी लघुलेखक	--	--	--	--	--	--	--
२४	संगणक कार्यक्रम चालक	--	--	--	--	--	--	--
२५	संगणक	--	--	--	--	--	--	--
२६	सहा. भांडारपाल/ भांडार लिपीक	--	--	--	--	--	--	--
२७	कालवा निरीक्षक	८	--	८	८	--	८	--
२८	मोजणीदार	४	--	४	४	--	४	--
२९	प्रयोगशाळा सहाय्यक	--	--	--	--	--	--	--
३०	वाहन चालक	--	--	--	--	१	--	--
३१	संदेशक	१	--	१	१	--	१	--
३२	अमीन	--	--	--	--	--	--	--
३३	नाईक	--	--	--	--	--	--	--
३४	शिपाई	१	--	१	१	२	१	--
३५	चौकीदार	--	--	--	--	१	--	--
३६	कालवा टपाली	१	--	१	१	--	१	--
३७	कालवा चौकीदार	३	--	३	३	--	३	--
३८	प्रयोगशाळा परिचर	--	--	--	--	--	--	--
३९	दप्तरी	--	--	--	--	--	--	--
	एकुण :-	२२	--	२२	२२	१३	२२	--

अ.क्र.	पदाचे नाव	सिंचन शाखा क्र.७, तिर्थपुरी (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.८, तिर्थपुरी (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा, गल्हाटी मध्यम प्रकल्प, शहापूर (शाखा कार्यालय)	एकुण पदे एकुण जालना पाटबंधारे विभाग, जालना
१	२	३	४	५	६
१	अधीक्षक अभियंता व प्रशासक	--	--	--	--
२	कार्यकारी अभियंता	--	--	--	१
३	उप कार्यकारी अभियंता	--	--	--	१
४	उप विभागीय अभियंता/ अधिकारी/ (सहाय्यक अधीक्षक अभियंता)/ सहाय्यक अधीक्षक अभियंता श्रेणी-१	--	--	--	६
५	शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता/ सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२	--	--	१	३१
६	स्था. अ. सहाय्यक	--	--	१	२५
७	विभागीय लेखापाल/लेखाधिकारी	--	--	--	१
८	अधीक्षक	--	--	--	--
९	प्रथम लिपीक	--	--	--	१
१०	मुख्य आरेखक	--	--	--	--
११	विभागीय भांडारपाल	--	--	--	१
१२	सहा. आरेखक (आरेखक श्रे-२)	--	--	--	१
१३	उच्चश्रेणी लघुलेखक	--	--	--	--
१४	वरिष्ठ दप्तर कारकुन	--	--	--	--
१५	वरिष्ठ लिपीक	--	--	--	११
१६	अनुरेखक (आरेखक श्रेणी- ३)	--	--	--	६

अ.क्र.	पदाचे नाव	सिंचन शाखा क्र.७, तिर्थपुरी (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.८, तिर्थपुरी (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा, गल्हाटी मध्यम प्रकल्प, शहापूर (शाखा कार्यालय)	एकुण पदे एकुण जालना पाटबंधारे विभाग, जालना
१	२	३	४	५	६
१७	कनिष्ठ लिपीक (कनिष्ठ लिपीक/ टंकलेखक-मंडळ कारकून)	--	--	--	१६
१८	टंकलेखक	--	--	--	९
१९	लेखाधिकारी	--	--	--	--
२०	प्रमुख दप्तर कारकुन	--	--	--	--
२१	दप्तर कारकुन	--	--	२	२०
२२	आरेखक (आरेखक श्रेणी- १)	--	--	--	१
२३	लघुटंक./निम्नश्रेणी लघुलेखक	--	--	--	१
२४	संगणक कार्यक्रम चालक	--	--	--	--
२५	संगणक	--	--	--	१
२६	सहा. भांडारपाल/ भांडार लिपीक	--	--	--	१
२७	कालवा निरीक्षक	--	--	८	७२
२८	मोजणीदार	--	--	४	३६
२९	प्रयोगशाळा सहाय्यक	--	--	--	--
३०	वाहन चालक	--	--	--	८
३१	संदेशक	--	--	१	९
३२	अमीन	--	--	--	--
३३	नाईक	--	--	--	१
३४	शिपाई	--	--	१	२६
३५	चौकीदार	--	--	--	८
३६	कालवा टपाली	--	--	१	९
३७	कालवा चौकीदार	--	--	३	२७

अ.क्र.	पदाचे नाव	सिंचन शाखा क्र.७, तिर्थपुरी (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा क्र.८, तिर्थपुरी (शाखा कार्यालय)	सिंचन शाखा, गल्हाटी मध्यम प्रकल्प, शहापूर (शाखा कार्यालय)	एकुण पदे एकुण जालना पाटबंधारे विभाग, जालना
१	२	३	४	५	६
३८	प्रयोगशाला परिचर	--	--	--	--
३९	दफ्तरी	--	--	--	--
	एकुण :-	--	--	२२	३३० (अस्थायी पदे ३१४ व स्थायी पदे-१६)

(प्रज्ञा मेश्राम)
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२५/प्र.क्र.६५/२५/लाक्षेवि (आस्था), दि. ०७/०४/२०२५ चे सहपत्र..

विवरणपत्र - ०७

अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, छत्रपती संभाजीनगर या कार्यालयाचे
उर्ध्व गोदावरी खो-यातील एकात्मिक पथक, छत्रपती संभाजीनगर या कार्यालयातील
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि.०१/०३/२०२५ ते दि.३१/०८/२०२५ पर्यंत मुदतवाढ

अ. क्र.	पदाचे नाव	उर्ध्व गोदावरी खो-यातील जलसंपत्ती व्यवस्थापन पथक, छत्रपती संभाजीनगर (विभागीय कार्यालय)
१	२	३
१	अधीक्षक अभियंता व प्रशासक	--
२	कार्यकारी अभियंता	१
३	उप कार्यकारी अभियंता	--
४	उप विभागीय अभियंता/ अधिकारी/ (सहाय्यक अधीक्षक अभियंता)/ सहाय्यक अधीक्षक अभियंता श्रेणी-१	४
५	शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता/ सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२	४
६	स्था. अ. सहाय्यक	--
७	विभागीय लेखापाल/लेखाधिकारी	--
८	अधीक्षक	--
९	प्रथम लिपीक	--
१०	मुख्य आरेखक	--
११	विभागीय भांडारपाल	१
१२	सहा. आरेखक (आरेखक श्रे-२)	--
१३	उच्चश्रेणी लघुलेखक	--
१४	वरिष्ठ दप्तर कारकुन	--
१५	वरिष्ठ लिपीक	--
१६	अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३)	--
१७	कनिष्ठ लिपीक (कनिष्ठ लिपीक/ टंकलेखक-मंडळ कारकून)	१

अ. क्र.	पदाचे नाव	उर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातील जलसंपत्ती व्यवस्थापन पथक, छत्रपती संभाजीनगर (विभागीय कार्यालय)
१	२	३
१८	टंकलेखक	--
१९	लेखाधिकारी	--
२०	प्रमुख दप्तर कारकुन	--
२१	दप्तर कारकुन	--
२२	आरेखक (आरेखक श्रेणी-१)	१
२३	लघुटंक./निम्नश्रेणी लघुलेखक	--
२४	संगणक कार्यक्रम चालक	--
२५	संगणक	--
२६	सहा. भांडारपाल/ भांडार लिपीक	--
२७	कालवा निरीक्षक	--
२८	मोजणीदार	--
२९	प्रयोगशाळा सहाय्यक	--
३०	वाहन चालक	१
३१	संदेशक	--
३२	अमीन	--
३३	नाईक	--
३४	शिपाई	२
३५	चौकीदार	--
३६	कालवा टपाली	--
३७	कालवा चौकीदार	--
३८	प्रयोगशाळा परिचर	--
३९	दप्तरी	--
	एकुण	१५
	सर्व एकुण	२३७६ (त्यापैकी नियत अस्थायी पदे-२३५४, स्थायी पदे-२२)

(प्रज्ञा मेश्राम)
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२५/प्र.क्र.६५/२५/लाक्षेवि (आस्था), दि.०७/०४/२०२५ चे सहपत्र.

विवरणपत्र - ०८

रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील कार्यरत कर्मचा-यांची यादी दि.०१/०३/२०२५ ते दि.३१/०८/२०२५ विभागीय कार्यालयाचे नाव :- कार्यकारी अभियंता, नांदुर मधमेश्वर पाटबंधारे विभाग, वैजापूर.

अ.क्र.	कर्मचाऱ्यांचे नाव	पदनाम	रुजू दिनांक	सेवानिवृत्तीचा दिनांक
१	२	३	४	५
१.	छगन रामभाऊ मतसागर	बिनतारी यंत्रचालक	०१-१२-१९९३	३०-०६-२०२६
२.	शेख युनूस शेख रहेमान	चौकीदार	२०-०१-१९९४	२९-०२-२०२८
३.	दस्तगीरखान अकबरखान	मजूर	२३-०६-१९८९	३१-०५-२०२५
४.	राजाराम पांडुरंग डेरे	मजूर	०२-०२-१९९०	३१-०८-२०२५
एकूण		०४		
विभागीय कार्यालयाचे नांव :- कार्यकारी अभियंता, जायकवाडी पाटबंधारे विभाग क्र. २, परभणी				
५.	बालाजी शंकर लाड	चौकीदार	०७-०१-१९९०	३०-०६-२०२६
६.	अशोक शेषराव संवडकर	चौकीदार	०८-०२-१९९०	३१-०३-२०२६
७.	बबन धोंडीबा शिंदे	चौकीदार	११-०६-१९९७	३०-०६-२०२८
८.	वसंत रावसाहेब गायकवाड	चौकीदार	११-०६-१९९७	३०-०४-२०२७
९.	नरहरी तातेराव वाघ	मजूर	०८-०१-१९९४	३०-०६-२०२६
१०.	राम गंगाराम कोयाळकर	मजूर	२६-०९-१९८८	३०-०४-२०२५
११.	माणीक योगाजी पुंड	मजूर	०७-०६-१९९३	३१-०७-२०२५
१२.	पी.टी.भूसारी	मजूर	०६-०१-१९९२	३१-०५-२०२७
एकूण		०८		
विभागीय कार्यालयाचे नांव :- कार्यकारी अभियंता, छत्रपती संभाजीनगर पाटबंधारे विभाग, छत्रपती संभाजीनगर				
१३.	बी आर जावळे	मजूर	०४-०३-१९९३	३०-०४-२०३१
१४.	एम.आर. चव्हाण	मजूर	१२-०६-१९९१	३१-१२-२०२७
१५.	रामकिशन देवराव साबळे	मजूर	१८-०८-१९९३	३०-०६-२०२६

अ.क्र.	कर्मचार्यांचे नाव	पदनाम	रुजू दिनांक	सेवानिवृत्तीचा दिनांक
१	२	३	४	५
१६.	अप्पा भिका आरक	मजूर	२०-०७-१९८८	३१-०५-२०२५
१७.	नाना लक्ष्मण सातदिवे	मजूर	०१-१२-१९९५	३१-०७-२०२५
१८.	युवराज भागाजी वाकेकर	मजूर	०६-१२-१९९५	३०-०६-२०३१
१९.	सोनाजी हरीभाऊ साखळे	मजूर	०६-१२-१९९५	२९-०२-२०२८
२०.	बलवीर निहालीराम डुलगाज	स्वीपर	०१-०९-१९९८	३१-०७-२०२५
२१.	शेख रबीब शे. रशीद	मजूर	०५-१२-१९९१	३१-०५-२०२८
२२.	रमेश कालीराम डुलगाज	स्वीपर	०१-०१-१९८९	३१-०५-२०२७
एकूण		१०		
कार्यालयाचे नांव:- कार्यकारी अभियंता, जायकवाडी पाटबंधारे विभाग नाथनगर उत्तर पैठण.				
२३.	बी.आर. बोबडे	मजूर	२०-१०-१९९०	३०-०६-२०२६
२४.	जी. एम. धनवे	मजूर	०५-०२-१९९५	३०-०६-२०२५
२५.	एम.एस. खराबे	मजूर	०५-११-१९९४	३०-०६-२०३१
२६.	श्रीमती.एस. यु. मुंढे	मजूर	०४-१०-१९९८	३१-०१-२०२८
२७.	डी. टी. राऊत	मजूर	०१-०१-१९९०	२८-०२-२०२६
२८.	सी. बी. उढाण	मजूर	०१-०५-१९९३	३०-०४-२०२५
२९.	यु. आर. विर	मजूर	३१-०३-१९९३	३१-०१-२०२८
३०.	बी. डी. बोबडे	का.नि	०१-१२-१९९३	३०-०६-२०२५
३१.	जी. जे. खराडकर	बिनतारी यंत्रचालक	०१-११-१९९२	३०-०४-२०२७
३२.	एन. जी. हारकळ	बिनतारी यंत्रचालक	१०-०७-१९९४	३१-०१-२०२९
३३.	आर.डी. चव्हाण	स्विपर	०१-०७-१९९४	३०-०४-२०३०
३४.	साहेबराव लक्ष्मण दुसिंग	मजूर	१६-०४-१९८७	३०-०६-२०२८
३५.	ए. बी. खराडे	मजूर	०१-०५-१९९१	३०-०४-२०२८
३६.	डि. एम. चक्रनारायण	मजूर	२३-१२-१९९०	३१-०५-२०२५
३७.	अब्दुल नासेर अब्दुल बारी	मजूर	०१-७-१९९०	३१-१०-२०२९
एकूण		१५		
विभागीय कार्यालयाचे नांव :- कार्यकारी अभियंता, जालना पाटबंधारे विभाग, जालना				
३८.	छत्रभुज बाबुराव गायकवाड	मजूर	०५-०१-१९८६	३१-०३-२०२६
३९.	श्री. रामप्रसाद रंगनाथ ढवळे	चौकीदार	०७-०१-१९८९	३०-०६-२०२७

अ.क्र.	कर्मचाऱ्यांचे नाव	पदनाम	रुजू दिनांक	सेवानिवृत्तीचा दिनांक
१	२	३	४	५
४०.	श्री.रमेश काशीनाथ जाधव	चौकीदार	०१-१२-१९९०	३०-०६-२०२६
४१.	श्री बालु अंबादास धुमाळ	मजुर	०८-०१-१९८९	३१-०५-२०२५
४२.	श्री.अंगद भिमा जाधव	मजूर	२१-११-१९९२	३१-०१-२०२७
एकूण		०५		
	रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील एकुण पदे	४२		

(प्रज्ञा मेश्राम)

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन